



Number of full time teachers with Ph. D. / NET / JRF during the last five years

2.4.2 Number of full time teachers with Ph.D./UGC-NET/MH-SET during the year (consider only highest degree for count)for A.Y. **2023-24**

S. No.	Name of full time teacher	Qualification (Ph.D./UGC-NET/JRF)	Year of obtaining Highest Degree	Name of University	Topic	
1	Dr. SUNIL KUMAR SRIVASTAVA	Ph.D, 2002	Ph.D	2002	University of Allahabad	Science
2	Dr. PAWAN KUMAR SHARMA	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	Tilka Majhi Bhagalpur University, Bihar	Reliability Theory
3	Dr. VIJAY RANI SOOD	Ph.D, 1991	Ph.D	1991	Punjab University	Inorganic chemistry
4	Dr. RITU SORYAN	Ph.D, 2012	Ph.D	2012	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	Religious Orthodoxy and its role in Value formation- A thematic study of the Novels of L.H. Myres
5	Dr. MAMTA TOMAR	Ph.D, 2006	Ph.D	2006	Jiwaji University, Gwalior	Shashi Deshpande, a study of feminine sensibility in her novels
6	Dr. MAMTA BHARDWAJ	Ph.D, 2010	Ph.D	2010	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Studies of Some Divalent and Trivalent Transition Metal Chelates Derived from Thiocarbonylhydrazide and a Diketone
7	Dr. KUNTALA MUKHERJEE	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Computational Modelling of Retinal Electrical Stimulation
8	Dr. VANDANA	Ph.D, 2010	Ph.D	2010	Mahatma Gandhi University	Studies of DNA Base Radical Cations using Anthraquinone Photosensitization and Radiation-Induced Precursors of Adenine Nitrogen Centered Radicals



9	Dr. SHAIFALI AGARWAL	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	A Study of Non-Linear Optimization Techniques
10	Dr. JAYA SHRIVASTAVA	Ph.D, 2003	Ph.D	2003	Dr. Harisingh Gour University, Sagar, MP	Alfven Waves in Magnetospheric Plasma
11	Dr. SURABHI SARA RAVINDRAN	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	Work-Life Balance of Women Executives in IT Sector: A Study in Delhi and NCR
12	Dr. GAYATRI PARHI	Ph.D, 2014	Ph.D	2014	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Approval of value added services and their impact on sale of two wheelers in India
13	Dr. JYOTI SHARMA	Ph.D, 2017	Ph.D	2017	University of Delhi	Magnesium Ion Conducting Polymer Electrolytes for Solid-State Magnesium Batteries
14	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D, 2014	Ph.D	2014	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Mergers and Acquisitions - An Analysis of Post - Mergers Performance of Companies in Pharmaceutical Industry (An Empirical Story)
15	Dr. PRANAY BHADAURIA	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	GLA University, Mathura	Studies on Weld Bead Geometry, Wear Behavior and Mechanical Properties of Nano Structured Weld Surfacing
16	Mr. VIKAS PAL	UGC NET 2018	UGC-NET	2018	UGC-NET	Chemical Science
17	Dr. MALTI SINGH GUPTA	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Sikkim Professional University	Important Role of Communicative English Language Teaching To Enhancing The Quality Of Life Of Learners Wider Life in India: A Linguistic Analysis
18	Dr. GOPAL SINGH	Ph.D, 2024	Ph.D	2024	Ch. Charan Singh University, Meerut	Modelling of Fuzzy Expert System for the Performance



						Evaluation of the Students
19	Dr. DEEPIKA AGARWAL	Ph.D, 2020	Ph.D	2020	Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad	A Study on Sum of Linear Fractional and Fuzzy- Valued Linear Fractional Optimization Problems
20	Mr. ABHISHEK KUMAR	UGC NET 2022	UGC-NET	2022	UGC-NET	Mathematical Science
21	Dr. NEHA GUPTA	Ph.D, 2017	Ph.D	2017	Delhi Technological University, Delhi	TCAD Analysis and Simulation of Gate Electrode Workfunction Engineered(GEWE) Silicon Nanowire MoSFET for High Performance Analog and RF Applications
22	Dr. VIBHAV NARAYAN SINGH	Ph.D, 2023	Ph.D	2023	Banaras Hindu University	Fractals New Features in Non-Hermitian and Space Fractional Quantum Mechanics
23	Dr. VICTOR DUTTA	Ph.D, 2017	Ph.D	2017	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Watermarking for Medical Images
24	Dr. RAJDHARI SINGH	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	A Comparative Study of Motivational Factors for Employees of Public and Private Sector Bank in Meerut District
25	Dr. MAHAMAYA MOHANTHY	Ph.D, 2014	Ph.D	2014	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Analysis of Human Expression using Soft Computing Techniques
26	Dr. SEEMA SHUKLA	Ph.D, 2010	Ph.D	2010	University of Lucknow	Generation of Computational Morphology Using Finite State Automata for Indian Languages, Specially Hindi
27	Dr. ANJALI YADAV	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	Banaras Hindu University	Financial Performance of Steel Authority of India Limited



28	Dr. RAKESH KUMAR SHARMA	Ph.D, 2013	Ph.D	2013	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	A Critical Evaluation of Human Resource Development Procedures and Practices in Life Insurance Corporation (LIC) of India
29	Dr. MAHESH KUMAR SINGH	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	University of Kota	Knowledge-based Recommendation System for E-business Analysis using Web mining Techniques
30	Dr. BIPIN PANDEY	Ph.D, 2021	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Psychiatric Problem: Soft Computing Method
31	Dr. NISHA SHARMA	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Invertis University, Bareilly	Some Approaches for Continuous User Authentication using Multi Biometric Traits
32	Dr. RAJAT KUMAR	Ph.D, 2021	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Wirelessly Powered Secured Backscatter Communication for Wireless Sensor Network
33	Mr. ASHISH PATEL	UGC NET 2017	UGC-NET	2017	UGC-NET	Computer Science & Application
34	Dr. SANDEEP MISHRA	Ph.D, 2021	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	The Impact of Computer Information System on a Traditional Industrial Sector in India
35	Dr. VINEET KUMAR YADAV	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Roorkee	Investigations on Rotary Tool Near-Dry Electrical Discharge Machining Process
36	Dr. TEENA GAKHAR	Ph.D, 2022	Ph.D	2022	The Birla Institute of Technology & Science	Carbon-TiO ₂ Nanocomposites based Devices for Detection of Volatile Organic Compounds
37	Dr. ASHISH SHARMA	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Jodhpur National University, Jodhpur	Interconnection Networks of Core in Multicore Processor



38	Dr. TARANG AGARWAL	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Shobhit University, Meerut	Mechanical Engineering
39	Dr. EVA AGARWAL	Ph.D, 2013	Ph.D	2013	Indian Institute of Technology, Madras	Computer Science and Engineering
40	Dr. VAISHALI	Ph.D, 2011	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
41	Dr. SUNIL NARULA	Ph.D, 2013	Ph.D	2013	The Birla Institute of Technology & Science	Computer Science
42	Dr. SUCHITA HOTWANI	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	Banasthali Vidyapith	Computer Science and Engineering
43	Dr. AADARSH MALVIYA	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Jagannath University, Jaipur	Towards Expert Systems for Enhancing Quality of Services in Cloud Computing
44	Dr. MANOJ KUMAR YADAV	Ph.D, 2021	Ph.D	2021	Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala	Metaheuristic Approaches for Occlusion Invariant 3D Face Recognition Technique
45	Dr. ARPITA GUPTA	Ph.D, 2010	Ph.D	2010	Sant Gadge Baba Amravati University, Maharashtra	Study the Capacitance of Normal and Abnormal Cell and Its Significance Related to Diseases
46	Dr. SANGHAMITRA VIKAS ARORA	Ph.D, 2017	Ph.D	2017	University of Rajasthan, Jaipur	Short Utterance Based Speaker Identification System for Resource Constrained Devices
47	Dr. MANOJ KUMAR PANDEY	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Kurukshetra University, Kurukshetra	Design & Characterization of Compact Ultra-Thin Metamaterial Absorbers for Narrowband and Wideband RF Applications
48	Dr. AMBIKA BENIWAL	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Jayoti Vidyapeeth Women's University	Computer Science
49	Dr. LILY GUPTA	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Zamia Millia Islamia	A Novel UWB Planar Antenna for Biomedical Applications based on CB - CPW



						Technique
50	Dr. HARI MOHAN RAI	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Detection of Fatal Diseases From Biomedical Signals and Images Using Hybrid Deep Neural Netwok Models
51	Dr. VIKRAM KUMAR	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University	Design Studies of TM01 to TM11 Sectoral Waveguide Mode Converters for the High Power Microwave Systems
52	Dr. SHEETAL YADAV	Ph.D, 2004	Ph.D	2004	CCS Haryana Agricultural University	Inter Simple Sequence Repeat Marker Analysis of Rice Genotypes Differing in Salinity Tolerance
53	Dr. AJAY SINGH	Ph.D, 2008	Ph.D	2008	Bundelkhand University	Vertical Mobilization of Women in Corporate Management(A Study of Service Sector Industries with Special reference to 5-Star Hotels in Delhi & NCRs of India)
54	Dr. UMA N V	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Invesrigations on Converter Topologies for Off- Shore Wind Energy Conversion Systems
55	Dr. NEETIKA ARORA	Ph.D, 2013	Ph.D	2013	Kurukshetra University , Kurukshetra	Synthesis and Characterization of Electrodeposited Copper Telluride and Zinc-Copper- Telluride Nanowires
56	Dr. RAJEEV GUPTA	Ph.D, 2020	Ph.D	2020	Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar	Isolated Word Recognition using Language Modeling Technique for Punjabi Language
57	Dr. GUNJEET KAUR	Ph.D, 2019	Ph.D	2019	Baba Masthnath University, Asthal Bohar, Rohtak	Electronics and Communication



58	Ms. MANISHA BISHT	UGC NET 2016	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
59	Ms. PAYAL GARG	UGC NET 2016	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
60	Dr. K K SAINI	Ph.D, 2003	Ph.D	2003	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Process Monitoring, Fault Diagnosis and Quality & Prediction Methoda Based Management on the Multivariant Statistical Technologies in Electronics & Computer Engineering Fields.
61	Dr. SANGEETA MANGESH KARYAKARTE	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Quantum Transport in Nanostructures
62	Dr. PALLAVI VERMA	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Delhi Technological University, Delhi	Control of Solar PV System based microgrid for Enhanced Performance
63	Dr. ARPANA MISHRA	Ph.D, 2023	Ph.D	2023	Sharda University	Designing Low Power Clustering and Routing Protocols for Large Scale Wireless Sensor Network
64	Dr. KAUSTUBH KUMAR SHUKLA	Ph.D, 2023	Ph.D	2023	Vinayaka Mission's Research Foundation	Design and Performance Analysis of MEMS-Based Devices for Environmental Monitoring and Healthcare
65	Dr. ANIRBAN MISHRA	Ph.D, 2022	Ph.D	2022	Indian Institute of Technology, (ISM) Dhanbad	Power Quality Issues of Wind Turbine
66	Dr. SWATI GOEL	Ph.D, 2011	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
67	Dr. SHILPA SEN	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	Patna University	Commerce
68	Dr. MANSI GOEL	Ph.D, 2016	Ph.D	2016	Dayalbagh Educational Institute, Agra	A Study of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Occupational Role Stress on Organizational



						Citizenship Behavior among Information Technology(IT) Professionals in India
69	Dr. K KAMAL	Ph.D, 1988	Ph.D	1988	Indian Institute of Science, Bangalore	Study of Vibration, Bucking and Flotter Problems of Composite Laminates
70	Dr. SUSHIL KUMAR BAGGA	Ph.D, 2010	Ph.D	2010	Bhartiya Shiksha Parishad Uttar Pradesh	Three Dimensional Fluid Dynamics and Heat Transfer in the Collision of a Microdroplet with a Moving or Stationary Surface
71	Dr. ANTARIKSH GUPTA	Ph.D, 2014	Ph.D	2014	Gautam Buddh Technical University, Lucknow	Fdevelopment and Analysis of AIR ENGINE
72	Dr. SUNIL KUMAR SHARMA	Ph.D, 2017	Ph.D	2017	Indian Institute of Technology(ISM), Dhanbad	Performance and Emission Analysis of Diesel Engine By Using Jatropa Biodiesel and Tyre Pyrolysis Oil Mixed with Nano Additives
73	Dr. SHAILESH KUMAR	Ph.D, 2021	Ph.D	2021	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Tribiological Behaviour of Chromium Nitride Coating Deposited by Physical Vapour Deposition
74	Dr. SAKET KUMAR	Ph.D, 2022	Ph.D	2022	Delhi Technological University, Delhi	Experimental & Thermodynamic Analysis of CI Engine Using Diesel-Based Biofuel Blends
75	Dr. DEEPAK KUMAR	Ph.D, 2023	Ph.D	2023	Delhi Technological University, Delhi	Wear Behaviour of Composite Coatings by Thermal Spray Process for High Temperature Applications
76	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D, 2012	Ph.D	2012	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Impact of New Economic Reforms on Empowerment of Rural Women in India (with special reference to Aligarh District of U.P.)



77	Dr. VANDANA PAREEK	Ph.D, 2012	Ph.D	2012	Banaras Hindu University	Relational Impact Study of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Banking Industry
78	Dr. SHALINI YADAV	Ph.D, 2015	Ph.D	2015	University of Delhi	Potential-Based multi-objective reinforcement Learning approaches to low-impact agents for AI Safety
79	Dr. NEELAM BHARDWAJ	Ph.D, 2018	Ph.D	2018	Jayoti Vidyapeeth Women's University	A Study on Work-Life Balance of Women employees in Engineering Colleges in GB. Nagar and Ghaziabad

2.4.2 Number of full time teachers with Ph.D./UGC-NET/MH-SET during the year (consider only highest degree for count)for A.Y. **2022-23**

S. No.	Name of full time teacher	Qualification (Ph.D./UGC-NET/JRF)	Year of obtaining Highest Degree	Name of University	Topic
1	Dr. SUNIL KUMAR SRIVASTAVA	Ph.D	2002	University of Allahabad	Science
2	Dr. PAWAN KUMAR SHARMA	Ph.D	2015	Tilka Majhi Bhagalpur University, Bihar	Reliability Theory
3	Dr. VIJAY RANI SOOD	Ph.D	1991	Punjab University	Inorganic chemistry
4	Dr. MAMTA TOMAR	Ph.D	2006	Jiwaji University, Gwalior	Shashi Deshpande, a study of feminine sensibility in her novels
5	Dr. MAMTA BHARDWAJ	Ph.D	2010	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Studies of Some Divalent and Trivalent Transition Metal Chelates Derived from Thiocarbohydrazide and a Diketone
6	Dr. KUNTALA MUKHERJEE	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and	Computational Modelling of Retinal Electrical Stimulation



				Technology	
7	Dr. VANDANA	Ph.D	2010	Mahatma Gandhi University	Studies of DNA Base Radical Cations using Anthraquinone Photosensitization and Radiation-Induced Precursors of Adenine Nitrogen Centered Radicals
8	Dr. SHAFALI AGARWAL	Ph.D	2015	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	A Study of Non-Linear Optimization Techniques
9	Dr. JAYA SHRIVASTAVA	Ph.D	2003	Dr. Harisingh Gour University, Sagar, MP	Alfven Waves in Magnetospheric Plasma
10	Dr. SURABHI SARA RAVINDRAN	Ph.D	2016	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	Work-Life Balance of Women Executives in IT Sector: A Study in Delhi and NCR
11	Dr. GAYATRI PARHI	Ph.D	2014	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Approval of value added services and their impact on sale of two wheelers in India
12	Dr. JYOTI SHARMA	Ph.D	2017	University of Delhi	Magnesium Ion Conducting Polymer Electrolytes for Solid-State Magnesium Batteries
13	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2014	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Mergers and Acquisitions - An Analysis of Post - Mergers Performance of Companies in Pharmaceutical Industry (An Empirical Story)
14	Mr. VIKAS PAL	UGC-NET	2018	UGC-NET	Chemical Science
15	Dr. MALTI SINGH GUPTA	Ph.D	2019	Sikkim Professional University	Important Role of Communicative English Language Teaching To Enhancing The Quality Of Life Of Learners Wider Life in India: A Linguistic Analysis



16	Dr. DEEPIKA AGARWAL	Ph.D	2020	Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad	A Study on Sum of Linear Fractional and Fuzzy- Valued Linear Fractional Optimization Problems
17	Mr. ABHISHEK KUMAR	UGC-NET	2022	UGC-NET	Mathematical Science
18	Dr. NEHA GUPTA	Ph.D	2017	Delhi Technological University, Delhi	TCAD Analysis and Simulation of Gate Electrode Workfunction Engineered(GEWE) Silicon Nanowire MoSFET for High Performance Analog and RF Applications
19	Mr. VIBHAV NARAYAN SINGH	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
20	Dr. VICTOR DUTTA	Ph.D	2017	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Watermarking for Medical Images
21	Dr. RAJDHARI SINGH	Ph.D	2019	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	A Comparative Study of Motivational Factors for Employees of Public and Private Sector Bank in Meerut District
22	Dr. MAHAMAYA MOHANTHY	Ph.D	2014	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Analysis of Human Expression using Soft Computing Techniques
23	Dr. SEEMA SHUKLA	Ph.D	2010	University of Lucknow	Generation of Computational Morphology Using Finite State Automata for Indian Languages, Specially Hindi
24	Dr. ANJALI YADAV	Ph.D	2015	Banaras Hindu University	Financial Performance of Steel Authority of India Limited
25	Dr. ASHISH SHARMA	Ph.D	2016	Jodhpur National University, Jodhpur	Interconnection Networks of Core in Multicore Processor
26	Dr. SUCHITA HOTWANI	Ph.D	2015	Banasthali Vidyapith	Computer Science and Engineering



27	Dr. RAKESH KUMAR SHARMA	Ph.D	2013	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	A Critical Evaluation of Human Resource Development Procedures and Practices in Life Insurance Corporation (LIC) of India
28	Dr. MAHESH KUMAR SINGH	Ph.D	2016	University of Kota	Knowledge-based Recommendation System for E-business Analysis using Web mining Techniques
29	Dr. TARANG AGARWAL	Ph.D	2016	Shobhit University, Meerut	Mechanical Engineering
30	Dr. NISHA SHARMA	Ph.D	2019	Invertis University, Bareilly	Some Approaches for Continuous User Authentication using Multi Biometric Traits
31	Dr. RAJAT KUMAR	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Wirelessly Powered Secured Backscatter Communication for Wireless Sensor Network
32	Dr. BIPIN PANDEY	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Psychiatric Problem: Soft Computing Method
33	Mr. ASHISH PATEL	UGC-NET	2017	UGC-NET	Computer Science & Application
34	Dr. SANDEEP MISHRA	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	The Impact of Computer Information System on a Traditional Industrial Sector in India
35	Dr. TEENA GAKHAR	Ph.D	2022	The Birla Institute of Technology & Science	Carbon-TiO ₂ Nanocomposites based Devices for Detection of Volatile Organic Compounds
36	Dr. VINEET KUMAR YADAV	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Roorkee	Investigations on Rotary Tool Near-Dry Electrical Discharge Machining Process
37	Dr. RITU SORYAN	Ph.D	2012	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	Religious Orthodoxy and its role in Value formation- A thematic study of the Novels of L.H. Myres



38	Dr. EVA AGARWAL	Ph.D	2013	Indian Institute of Technology, Madras	Computer Science and Engineering
39	Dr. VAISHALI	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
40	Dr. SUNIL NARULA	Ph.D	2013	The Birla Institute of Technology & Science	Computer Science
41	Dr. AADARSH MALVIYA	Ph.D	2019	Jagannath University, Jaipur	Towards Expert Systems for Enhancing Quality of Services in Cloud Computing
42	Dr. MANOJ KUMAR YADAV	Ph.D	2021	Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala	Metaheuristic Approaches for Occlusion Invariant 3D Face Recognition Technique
43	Dr. ARPITA GUPTA	Ph.D	2010	Sant Gadge Baba Amravati University, Maharashtra	Study the Capacitance of Normal and Abnormal Cell and Its Significance Related to Diseases
44	Dr. MANOJ KUMAR PANDEY	Ph.D	2016	Kurukshetra University, Kurukshetra	Design & Characterization of Compact Ultra-Thin Metamaterial Absorbers for Narrowband and Wideband RF Applications
45	Dr. SANGHAMITRA VIKAS ARORA	Ph.D	2017	University of Rajasthan, Jaipur	Short Utterance Based Speaker Identification System for Resource Constrained Devices
46	Dr. AMBIKA BENIWAL	Ph.D	2016	Jayoti Vidyapeeth Women's University	Computer Science
47	Dr. LILY GUPTA	Ph.D	2019	Zamia Millia Islamia	A Novel UWB Planar Antenna for Biomedical Applications based on CB - CPW Technique
48	Dr. VIKRAM KUMAR	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University	Design Studies of TM ₀₁ to TM ₁₁ Sectoral Waveguide Mode Converters for the High Power



					Microwave Systems
49	Dr. HARI MOHAN RAI	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Detection of Fatal Diseases From Biomedical Signals and Images Using Hybrid Deep Neural Network Models
50	Dr. SHEETAL YADAV	Ph.D	2004	CCS Haryana Agricultural University	Inter Simple Sequence Repeat Marker Analysis of Rice Genotypes Differing in Salinity Tolerance
51	Dr. AJAY SINGH	Ph.D	2008	Bundelkhand University	Vertical Mobilization of Women in Corporate Management(A Study of Service Sector Industries with Special reference to 5-Star Hotels in Delhi & NCRs of India)
52	Dr. UMA N V	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Investigations on Converter Topologies for Off-Shore Wind Energy Conversion Systems
53	Dr. NEETIKA ARORA	Ph.D	2013	Kurukshetra University , Kurukshetra	Synthesis and Characterization of Electrodeposited Copper Telluride and Zinc-Copper-Telluride Nanowires
54	Dr. RAJEEV GUPTA	Ph.D	2020	Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar	Isolated Word Recognition using Language Modeling Technique for Punjabi Language
55	Dr. GUNJEET KAUR	Ph.D	2019	Baba Masthnath University, Asthal Bohar, Rohtak	Electronics and Communication
56	Ms. MANISHA BISHT	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
57	Ms. PAYAL GARG	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
58	Dr. K K SAINI	Ph.D	2003	Chaudhary Charan Singh University,	Process Monitoring, Fault Diagnosis and



				Meerut	Quality & Prediction Methoda Based Management on the Multivariant Statistical Technologies in Electronics & Computer Engineering Fields.
59	Dr. SANGEETA MANGESH KARYAKARTE	Ph.D	2016	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Quantum Transport in Nanostructures
60	Dr. PRANAY BHADAURIA	Ph.D	2016	GLA University, Mathura	Studies on Weld Bead Geometry, Wear Behavior and Mechanical Properties of Nano Structured Weld Surfacing
61	Dr. PALLAVI VERMA	Ph.D	2016	Delhi Technological University, Delhi	Control of Solar PV System based microgrid for Enhanced Performance
62	Dr. ANIRBAN MISHRA	Ph.D	2022	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Power Quality Issues of Wind Turbine
63	Dr. SWATI GOEL	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
64	Dr. SHILPA SEN	Ph.D	2015	Patna University	Commerce
65	Dr. MANSI GOEL	Ph.D	2016	Dayalbagh Educational Institute, Agra	A Study of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Occupational Role Stress on Organizational Citizenship Behavior among Information Technology(IT) Professionals in India
66	Dr. K KAMAL	Ph.D	1988	Indian Institute of Science, Bangalore	Study of Vibration, Bucking and Flotter Problems of Composite Laminates
67	Dr. SUSHIL KUMAR BAGGA	Ph.D	2010	Bhartiya Shiksha Parishad Uttar Pradesh	Three Dimensional Fluid Dynamics and Heat Transfer in the



					Collision of a Microdroplet with a Moving or Stationary Surface
68	Dr. ANTARIKSH GUPTA	Ph.D	2014	Gautam Buddha Technical University, Lucknow	Fdevelopment and Analysis of AIR ENGINE
69	Dr. SUNIL KUMAR SHARMA	Ph.D	2017	Indian Institute of Technology(ISM), Dhanbad	Performance and Emission Analysis of Diesel Engine By Using Jatropa Biodiesel and Tyre Pyrolysis Oil Mixed with Nano Additives
70	Dr. SAKET KUMAR	Ph.D	2022	Delhi Technological University, Delhi	Experimental & Thermodynamic Analysis of CI Engine Using Diesel-Based Biofuel Blends
71	Dr. SHAILESH KUMAR	Ph.D	2021	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Tribiological Behaviour of Chromium Nitride Coating Deposited by Physical Vapour Deposition
72	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2012	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Impact of New Economic Reforms on Empowerment of Rural Women in India (with special reference to Aligarh District of U.P.)
73	Dr. VANDANA PAREEK	Ph.D	2012	Banaras Hindu University	Relational Impact Study of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Banking Industry
74	Dr. SHALINI YADAV	Ph.D	2015	University of Delhi	Potential-Based multi-objective reinforcement Learning approaches to low-impact agents for AI Safety
75	Dr. NEELAM BHARDWAJ	Ph.D	2018	Jayoti Vidyapeeth Women's University	A Study on Work-Life Balance of Women employees in Engineering Colleges in GB. Nagar and Ghaziabad



2.4.2 Number of full time teachers with Ph.D./UGC-NET/MH-SET during the year (consider only highest degree for count)for A.Y. **2021-22**

S. No.	Name of full time teacher	Qualification (Ph.D./UGC-NET/JRF)	Year of obtaining Highest Degree	Name of University	Topic
1	Dr. RITU SORYAN	Ph.D	2012	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	Religious Orthodoxy and its role in Value formation- A thematic study of the Novels of L.H. Myres
2	Dr. SUNIL KUMAR SRIVASTAVA	Ph.D	2002	University of Allahabad	Science
3	Dr. PAWAN KUMAR SHARMA	Ph.D	2015	Tilka Majhi Bhagalpur University, Bihar	Reliability Theory
4	Dr. VIJAY RANI SOOD	Ph.D	1991	Punjab University	Inorganic chemistry
5	Dr. MAMTA TOMAR	Ph.D	2006	Jiwaji University, Gwalior	Shashi Deshpande, a study of feminine sensibility in her novels
6	Dr. MAMTA BHARDWAJ	Ph.D	2010	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Studies of Some Divalent and Trivalent Transition Metal Chelates Derived from Thiocarbonylhydrazide and a Diketone
7	Dr. KUNTALA MUKHERJEE	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Computational Modelling of Retinal Electrical Stimulation
8	Dr. VANDANA	Ph.D	2010	Mahatma Gandhi University	Studies of DNA Base Radical Cations using Anthraquinone Photosensitization and Radiation-Induced Precursors of Adenine Nitrogen Centered Radicals
9	Dr. SHAIKALI AGARWAL	Ph.D	2015	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	A Study of Non-Linear Optimization Techniques
10	Dr. JAYA SHRIVASTAVA	Ph.D	2003	Dr. Harisingh Gour University, Sagar, MP	Alfven Waves in Magnetospheric Plasma
11	Dr. SURABHI SARA RAVINDRAN	Ph.D	2016	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	Work-Life Balance of Women Executives in IT Sector: A Study in Delhi and NCR
12	Dr. GAYATRI PARHI	Ph.D	2014	Chaudhary Charan Singh University,	Approval of value added services and their impact on sale of two wheelers in India



				Meerut	
13	Dr. JYOTI SHARMA	Ph.D	2017	University of Delhi	Magnesium Ion Conducting Polymer Electrolytes for Solid-State Magnesium Batteries
14	Mr. VIKAS PAL	UGC-NET	2018	UGC-NET	Chemical Science
15	Dr. MALTI SINGH GUPTA	Ph.D	2019	Sikkim Professional University	Important Role of Communicative English Language Teaching To Enhancing The Quality Of Life Of Learners Wider Life in India: A Linguistic Analysis
16	Dr. ASTHA MALHOTRA	Ph.D	2019	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Study of Heat Transfer Problems in the Axisymmetric Flows of Non-Newtonian Second-Order Fluids
17	Dr. DEEPIKA AGARWAL	Ph.D	2020	Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad	A Study on Sum of Linear Fractional and Fuzzy- Valued Linear Fractional Optimization Problems
18	Dr. NEHA GUPTA	Ph.D	2017	Delhi Technological University, Delhi	TCAD Analysis and Simulation of Gate Electrode Workfunction Engineered(GEWE) Silicon Nanowire MoSFET for High Performance Analog and RF Applications
19	Mr. VIBHAV NARAYAN SINGH	UGC-NET	2017	UGC-NET	Physical Science
20	Dr. MAHAMAYA MOHANTHY	Ph.D	2014	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Analysis of Human Expression using Soft Computing Techniques
21	Dr. SEEMA SHUKLA	Ph.D	2010	University of Lucknow	Generation of Computational Morphology Using Finite State Automata for Indian Languages, Specially Hindi
22	Dr. ANJALI YADAV	Ph.D	2015	Banaras Hindu University	Financial Performance of Steel Authority of India Limited
23	Dr. ASHISH SHARMA	Ph.D	2016	Jodhpur National University, Jodhpur	Interconnection Networks of Core in Multicore Processor
24	Dr. SUCHITA HOTWANI	Ph.D	2015	Banasthali Vidyapith	Computer Science and Engineering
25	Dr. JOSHIKA RANA	Ph.D	2015	Dayalbagh Educational Institute, Agra	Human Resource Accounting and Disclosure Practices in Indian Companies(A Comparative Study of Public



					and Private Sector Companies)
26	Dr. RAKESH KUMAR SHARMA	Ph.D	2013	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	A Critical Evaluation of Human Resource Development Procedures and Practices in Life Insurance Corporation (LIC) of India
27	Dr. MAHESH KUMAR SINGH	Ph.D	2016	University of Kota	Knowledge-based Recommendation System for E-business Analysis using Web mining Techniques
28	Dr. NISHA SHARMA	Ph.D	2019	Invertis University, Bareilly	Some Approaches for Continuous User Authentication using Multi Biometric Traits
29	Dr. RAJAT KUMAR	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Wirelessly Powered Secured Backscatter Communication for Wireless Sensor Network
30	Dr. SANDEEP MISHRA	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	The Impact of Computer Information System on a Traditional Industrial Sector in India
31	Dr. BIPIN PANDEY	Ph.D	2021	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Psychiatric Problem: Soft Computing Method
32	Mr. ASHISH PATEL	UGC-NET	2017	UGC-NET	Computer Science & Application
33	Dr. VAISHALI	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
34	Dr. SUNIL NARULA	Ph.D	2013	The Birla Institute of Technology & Science	Computer Science
35	Dr. AADARSH MALVIYA	Ph.D	2019	Jagannath University, Jaipur	Towards Expert Systems for Enhancing Quality of Services in Cloud Computing
36	Dr. MANOJ KUMAR YADAV	Ph.D	2021	Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala	Metaheuristic Approaches for Occlusion Invariant 3D Face Recognition Technique
37	Dr. ARPITA GUPTA	Ph.D	2010	Sant Gadge Baba Amravati University, Maharashtra	Study the Capacitance of Normal and Abnormal Cell and Its Significance Related to Diseases
38	Dr. MANOJ KUMAR PANDEY	Ph.D	2016	Kurukshetra University, Kurukshetra	Design & Characterization of Compact Ultra-Thin Metamaterial Absorbers for Narrowband and Wideband RF Applications



39	Dr. SANGHAMITRA VIKAS ARORA	Ph.D	2017	University of Rajasthan, Jaipur	Short Utterance Based Speaker Identification System for Resource Constrained Devices
40	Dr. AMBIKA BENIWAL	Ph.D	2016	Jayoti Vidyapeeth Women's University	Computer Science
41	Dr. LILY GUPTA	Ph.D	2019	Zamia Millia Islamia	A Novel UWB Planar Antenna for Biomedical Applications based on CB - CPW Technique
42	Dr. VIKRAM KUMAR	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University	Design Studies of TM01 to TM11 Sectoral Waveguide Mode Converters for the High Power Microwave Systems
43	Dr. HARI MOHAN RAI	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Detection of Fatal Diseases From Biomedical Signals and Images Using Hybrid Deep Neural Network Models
44	Dr. SHEETAL YADAV	Ph.D	2004	CCS Haryana Agricultural University	Inter Simple Sequence Repeat Marker Analysis of Rice Genotypes Differing in Salinity Tolerance
45	Dr. UMA N V	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Investigations on Converter Topologies for Off-Shore Wind Energy Conversion Systems
46	Dr. NEETIKA ARORA	Ph.D	2013	Kurukshetra University , Kurukshetra	Synthesis and Characterization of Electrodeposited Copper Telluride and Zinc-Copper-Telluride Nanowires
47	Dr. RAJEEV GUPTA	Ph.D	2020	Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar	Isolated Word Recognition using Language Modeling Technique for Punjabi Language
48	Dr. GUNJEET KAUR	Ph.D	2019	Baba Masth Nath University, Asthal Bohar, Rohtak	Electronics and Communication
49	Ms. MANISHA BISHT	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
50	Ms. PAYAL GARG	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
51	Dr. K K SAINI	Ph.D	2003	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Process Monitoring, Fault Diagnosis and Quality & Prediction Methods Based Management on the Multivariate Statistical Technologies in Electronics & Computer Engineering Fields.



52	Dr. SANGEETA MANGESH KARYAKARTE	Ph.D	2016	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Quantum Transport in Nanostructures
53	Dr. PRANAY BHADAURIA	Ph.D	2016	GLA University, Mathura	Studies on Weld Bead Geometry, Wear Behavior and Mechanical Properties of Nano Structured Weld Surfacing
54	Dr. PALLAVI VERMA	Ph.D	2016	Delhi Technological University, Delhi	Control of Solar PV System based microgrid for Enhanced Performance
55	Dr. SWATI GOEL	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
56	Dr. EVA AGARWAL	Ph.D	2013	Indian Institute of Technology, Madras	Computer Science and Engineering
57	Dr. SHILPA SEN	Ph.D	2015	Patna University	Commerce
58	Dr. MANSI GOEL	Ph.D	2016	Dayalbagh Educational Institute, Agra	A Study of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Occupational Role Stress on Organizational Citizenship Behavior among Information Technology(IT) Professionals in India
59	Dr. SUSHIL KUMAR BAGGA	Ph.D	2010	Bhartiya Shiksha Parishad Uttar Pradesh	Three Dimensional Fluid Dynamics and Heat Transfer in the Collision of a Microdroplet with a Moving or Stationary Surface
60	Dr. TARANG AGARWAL	Ph.D	2016	Shobhit University, Meerut	Mechanical Engineering
61	Dr. ANTARIKSH GUPTA	Ph.D	2014	Gautam Buddha Technical University, Lucknow	Fdevelopment and Analysis of AIR ENGINE
62	Dr. VINEET KUMAR YADAV	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Roorkee	Investigations on Rotary Tool Near-Dry Electrical Discharge Machining Process
63	Dr. SHAILESH KUMAR	Ph.D	2021	Indian Institute of Technology, (ISM) Dhanbad	Tribiological Behaviour of Chromium Nitride Coating Deposited by Physical Vapour Deposition
64	Dr. SUNIL KUMAR SHARMA	Ph.D	2017	Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad	Performance and Emission Analysis of Diesel Engine By Using Jatropha Biodiesel and Tyre Pyrolysis Oil Mixed with Nano Additives
65	Dr. K KAMAL	Ph.D	1988	Indian Institute of Science, Bangalore	Study of Vibration, Bucking and Flotter Problems of Composite Laminates



66	Dr. AJAY SINGH	Ph.D	2008	Bundelkhand University	Vertical Mobilization of Women in Corporate Management(A Study of Service Sector Industries with Special reference to 5-Star Hotels in Delhi & NCRs of India)
67	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2012	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Impact of New Economic Reforms on Empowerment of Rural Women in India (with special reference to Aligarh District of U.P.)
68	Dr. VICTOR DUTTA	Ph.D	2017	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Watermarking for Medical Images
69	Dr. RAJDHARI SINGH	Ph.D	2019	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	A Comparative Study of Motivational Factors for Employees of Public and Private Sector Bank in Meerut District
70	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2014	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Mergers and Acquisitions - An Analysis of Post - Mergers Performance of Companies in Pharmaceutical Industry (An Empirical Story)
71	Dr. VANDANA PAREEK	Ph.D	2012	Banaras Hindu University	Relational Impact Study of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Banking Industry
72	Dr. SHALINI YADAV	Ph.D	2015	University of Delhi	Potential-Based multi-objective reinforcement Learning approaches to low-impact agents for AI Safety
73	Dr. NEELAM BHARDWAJ	Ph.D	2018	Jayoti Vidyapeeth Women's University	A Study on Work-Life Balance of Women employees in Engineering Colleges in GB. Nagar and Ghaziabad

2.4.2 Number of full time teachers with Ph.D./UGC-NET/MH-SET during the year (consider only highest degree for count)for A.Y. **2020-21**

S. No.	Name of full time teacher	Qualification (Ph.D./UGC-NET/JRF)	Year of obtaining Highest Degree	Name of University	Topic
1	Dr. RITU SORYAN	Ph.D	2012	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	Religious Orthodoxy and its role in Value formation- A thematic study of the Novels of L.H. Myres
2	Dr. SUNIL KUMAR SRIVASTAVA	Ph.D	2002	University of Allahabad	Science



3	Dr. VIJAY RANI SOOD	Ph.D	1991	Punjab University	Inorganic chemistry
4	Dr. MAMTA TOMAR	Ph.D	2006	Jiwaji University, Gwalior	Shashi Deshpande, a study of feminine sensibility in her novels
5	Dr. MAMTA BHARDWAJ	Ph.D	2010	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Studies of Some Divalent and Trivalent Transition Metal Chelates Derived from Thiocarbonylhydrazide and a Diketone
6	Dr. PAWAN KUMAR SHARMA	Ph.D	2015	Tilka Majhi Bhagalpur University, Bihar	Reliability Theory
7	Dr. KUNTALA MUKHERJEE	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Computational Modelling of Retinal Electrical Stimulation
8	Dr. VANDANA	Ph.D	2010	Mahatma Gandhi University	Studies of DNA Base Radical Cations using Anthraquinone Photosensitization and Radiation-Induced Precursors of Adenine Nitrogen Centered Radicals
9	Dr. SHAIKALI AGARWAL	Ph.D	2015	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	A Study of Non-Linear Optimization Techniques
10	Dr. JAYA SHRIVASTAVA	Ph.D	2003	Dr. Harisingh Gour University, Sagar, MP	Alfvén Waves in Magnetospheric Plasma
11	Dr. GAYATRI PARHI	Ph.D	2014	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Approval of value added services and their impact on sale of two wheelers in India
12	Dr. JYOTI SHARMA	Ph.D	2017	University of Delhi	Magnesium Ion Conducting Polymer Electrolytes for Solid-State Magnesium Batteries
13	Dr. RAKESH KUMAR SHARMA	Ph.D	2013	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	A Critical Evaluation of Human Resource Development Procedures and Practices in Life Insurance Corporation (LIC) of India
14	Mr. VIKAS PAL	UGC-NET	2018	UGC-NET	Chemical Science
15	Dr. MALTI SINGH GUPTA	Ph.D	2019	Sikkim Professional University	Important Role of Communicative English Language Teaching To Enhancing The Quality Of Life Of Learners Wider Life in India: A Linguistic Analysis
16	Dr. ASTHA MALHOTRA	Ph.D	2019	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Study of Heat Transfer Problems in the Axisymmetric Flows of Non-Newtonian Second-Order



					Fluids
17	Dr. DEEPIKA AGARWAL	Ph.D	2020	Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad	A Study on Sum of Linear Fractional and Fuzzy- Valued Linear Fractional Optimization Problems
18	Dr. NEHA GUPTA	Ph.D	2017	Delhi Technological University, Delhi	TCAD Analysis and Simulation of Gate Electrode Workfunction Engineered(GEWE) Silicon Nanowire MoSFET for High Performance Analog and RF Applications
19	Mr. VIBHAV NARAYAN SINGH	UGC-NET	2017	UGC-NET	Physical Science
20	Dr. SEEMA SHUKLA	Ph.D	2010	University of Lucknow	Generation of Computational Morphology Using Finite State Automata for Indian Languages, Specially Hindi
21	Dr. MAHAMAYA MOHANTHY	Ph.D	2014	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Analysis of Human Expression using Soft Computing Techniques
22	Dr. ANJALI YADAV	Ph.D	2015	Banaras Hindu University	Financial Performance of Steel Authority of India Limited
23	Dr. ASHISH SHARMA	Ph.D	2016	Jodhpur National University, Jodhpur	Interconnection Networks of Core in Multicore Processor
24	Dr. SUCHITA HOTWANI	Ph.D	2015	Banasthali Vidyapith	Computer Science and Engineering
25	Dr. MAHESH KUMAR SINGH	Ph.D	2016	University of Kota	Knowledge-based Recommendation System for E-business Analysis using Web mining Techniques
26	Dr. NISHA SHARMA	Ph.D	2019	Invertis University, Bareilly	Some Approaches for Continuous User Authentication using Multi Biometric Traits
27	Mr. ASHISH PATEL	UGC-NET	2017	UGC-NET	Computer Science & Application
28	Dr. VAISHALI	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
29	Dr. SUNIL NARULA	Ph.D	2013	The Birla Institute of Technology & Science	Computer Science
30	Dr. AADARSH MALVIYA	Ph.D	2019	Jagannath University, Jaipur	Towards Expert Systems for Enhancing Quality of Services in Cloud Computing
31	Dr. ARPITA GUPTA	Ph.D	2010	Sant Gadge Baba Amravati University, Maharashtra	Study the Capacitance of Normal and Abnormal Cell and Its Significance Related



					to Diseases
32	Dr. MANOJ KUMAR PANDEY	Ph.D	2016	Kurukshetra University , Kurukshetra	Design & Characterization of Compact Ultra-Thin Metamaterial Absorbers for Narrowband and Wideband RF Applications
33	Dr. AMBIKA BENIWAL	Ph.D	2016	Jayoti Vidyapeeth Women's University	Computer Science
34	Dr. JOSHIKA RANA	Ph.D	2015	Dayalbagh Educational Institute, Agra	Human Resource Accounting and Disclosure Practices in Indian Companies(A Comparative Study of Public and Private Sector Companies)
35	Dr. LILY GUPTA	Ph.D	2019	Zamia Millia Islamia	A Novel UWB Planar Antenna for Biomedical Applications based on CB - CPW Technique
36	Dr. VIKRAM KUMAR	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University	Design Studies of TM01 to TM11 Sectoral Waveguide Mode Converters for the High Power Microwave Systems
37	Dr. SANGHAMITRA VIKAS ARORA	Ph.D	2017	University of Rajasthan, Jaipur	Short Utterance Based Speaker Identification System for Resource Constrained Devices
38	Dr. HARI MOHAN RAI	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Detection of Fatal Diseases From Biomedical Signals and Images Using Hybrid Deep Neural Network Models
39	Dr. SHEETAL YADAV	Ph.D	2004	CCS Haryana Agricultural University	Inter Simple Sequence Repeat Marker Analysis of Rice Genotypes Differing in Salinity Tolerance
40	Dr. UMA N V	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Investigations on Converter Topologies for Off-Shore Wind Energy Conversion Systems
41	Dr. NEETIKA ARORA	Ph.D	2013	Kurukshetra University , Kurukshetra	Synthesis and Characterization of Electrodeposited Copper Telluride and Zinc-Copper-Telluride Nanowires
42	Dr. RAJEEV GUPTA	Ph.D	2020	Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar	Isolated Word Recognition using Language Modeling Technique for Punjabi Language
43	Dr. GUNJEET KAUR	Ph.D	2019	Baba Masth Nath University, Asthal Bohar, Rohtak	Electronics and Communication
44	Ms. MANISHA BISHT	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science



45	Ms. PAYAL GARG	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
46	DR. K K SAINI	Ph.D	2003	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Process Monitoring, Fault Diagnosis and Quality & Prediction Methods Based Management on the Multivariate Statistical Technologies in Electronics & Computer Engineering Fields.
47	Dr. SANGEETA MANGESH KARYAKARTE	Ph.D	2016	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Quantum Transport in Nanostructures
48	Dr. PRANAY BHADAURIA	Ph.D	2016	GLA University, Mathura	Studies on Weld Bead Geometry, Wear Behavior and Mechanical Properties of Nano Structured Weld Surfacing
49	Dr. PALLAVI VERMA	Ph.D	2016	Delhi Technological University, Delhi	Control of Solar PV System based microgrid for Enhanced Performance
50	Dr. SWATI GOEL	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
51	Dr. EVA AGARWAL	Ph.D	2013	Indian Institute of Technology, Madras	Computer Science and Engineering
52	Dr. MANSI GOEL	Ph.D	2016	Dayalbagh Educational Institute, Agra	A Study of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Occupational Role Stress on Organizational Citizenship Behavior among Information Technology(IT) Professionals in India
53	Dr. SUSHIL KUMAR BAGGA	Ph.D	2010	Bhartiya Shiksha Parishad Uttar Pradesh	Three Dimensional Fluid Dynamics and Heat Transfer in the Collision of a Microdroplet with a Moving or Stationary Surface
54	Dr. TARANG AGARWAL	Ph.D	2016	Shobhit University, Meerut	Mechanical Engineering
55	Dr. SHILPA SEN	Ph.D	2015	Patna University	Commerce
56	Dr. ANTARIKSH GUPTA	Ph.D	2014	Gautam Buddha Technical University, Lucknow	Development and Analysis of AIR ENGINE
57	Dr. VINEET KUMAR YADAV	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Roorkee	Investigations on Rotary Tool Near-Dry Electrical Discharge Machining Process
58	Dr. SUNIL KUMAR SHARMA	Ph.D	2017	Indian Institute of Technology(ISM), Dhanbad	Performance and Emission Analysis of Diesel Engine By Using Jatropha Biodiesel and Tyre Pyrolysis Oil Mixed with Nano Additives



59	Dr. K KAMAL	Ph.D	1988	Indian Institute of Science, Bangalore	Study of Vibration, Bucking and Flotter Problems of Composite Laminates
60	Dr. AJAY SINGH	Ph.D	2008	Bundelkhand University	Vertical Mobilization of Women in Corporate Management(A Study of Service Sector Industries with Special reference to 5-Star Hotels in Delhi & NCRs of India)
61	Dr. SURABHI SARA RAVINDRAN	Ph.D	2016	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	Work-Life Balance of Women Executives in IT Sector: A Study in Delhi and NCR
62	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2012	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Impact of New Economic Reforms on Empowerment of Rural Women in India (with special reference to Aligarh District of U.P.)
63	Dr. VICTOR DUTTA	Ph.D	2017	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Watermarking for Medical Images
64	Dr. RAJDHARI SINGH	Ph.D	2019	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	A Comparative Study of Motivational Factors for Employees of Public and Private Sector Bank in Meerut District
65	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2014	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Mergers and Acquisitions - An Analysis of Post - Mergers Performance of Companies in Pharmaceutical Industry (An Empirical Story)
66	Dr. VANDANA PAREEK	Ph.D	2012	Banaras Hindu University	Relational Impact Study of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Banking Industry
67	Dr. SHALINI YADAV	Ph.D	2015	University of Delhi	Potential-Based multi-objective reinforcement Learning approaches to low-impact agents for AI Safety
68	Dr. NEELAM BHARDWAJ	Ph.D	2018	Jayoti Vidyapeeth Women's University	A Study on Work-Life Balance of Women employees in Engineering Colleges in GB. Nagar and Ghaziabad
69	Ms. ANU JAIN	UGC-NET	2014	UGC-NET	Management



2.4.2 Number of full time teachers with Ph.D./UGC-NET/MH-SET during the year (consider only highest degree for count)for A.Y. **2019-20**

S. No.	Name of full time teacher	Qualification (Ph.D./UGC-NET/JRF)	Year of obtaining Highest Degree	Name of University	Topic
1	Dr. RITU SORYAN	Ph.D	2012	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	Religious Orthodoxy and its role in Value formation- A thematic study of the Novels of L.H. Myres
2	Dr. SUNIL KUMAR SRIVASTAVA	Ph.D	2002	University of Allahabad	Science
3	Dr. VIJAY RANI SOOD	Ph.D	1991	Punjab University	Inorganic chemistry
4	Dr. SHILPI SAXENA	Ph.D	2005	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Treatment of Love in the Poetry of Kamla Das
5	Dr. MAMTA TOMAR	Ph.D	2006	Jiwaji University, Gwalior	Shashi Deshpande, a study of feminine sensibility in her novels
6	Dr. MAMTA BHARDWAJ	Ph.D	2010	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Studies of Some Divalent and Trivalent Transition Metal Chelates Derived from Thiocarbonylhydrazide and a Diketone
7	Dr. PAWAN KUMAR SHARMA	Ph.D	2015	Tilka Majhi Bhagalpur University, Bihar	Reliability Theory
8	Dr. KUNTALA MUKHERJEE	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Computational Modelling of Retinal Electrical Stimulation
9	Dr. VANDANA	Ph.D	2010	Mahatma Gandhi University	Studies of DNA Base Radical Cations using Anthraquinone Photosensitization and Radiation-Induced Precursors of Adenine Nitrogen Centered Radicals
10	Dr. SHAIKALI AGARWAL	Ph.D	2015	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	A Study of Non-Linear Optimization Techniques
11	Dr. JAYA SHRIVASTAVA	Ph.D	2003	Dr. Harisingh Gour University, Sagar, MP	Alfven Waves in Magnetospheric Plasma
12	Dr. JYOTI SHARMA	Ph.D	2017	University of Delhi	Magnesium Ion Conducting Polymer Electrolytes for Solid-State Magnesium Batteries
13	Dr. RAKESH KUMAR SHARMA	Ph.D	2013	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University	A Critical Evaluation of Human Resource Development Procedures and Practices in Life Insurance Corporation



					(LIC) of India
14	Mr. VIKAS PAL	UGC-NET	2018	UGC-NET	Chemical Science
15	Dr. MALTI SINGH GUPTA	Ph.D	2019	Sikkim Professional University	Important Role of Communicative English Language Teaching To Enhancing The Quality Of Life Of Learners Wider Life in India: A Linguistic Analysis
16	Dr. ASTHA MALHOTRA	Ph.D	2019	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Study of Heat Transfer Problems in the Axisymmetric Flows of Non-Newtonian Second-Order Fluids
17	Dr. NEHA GUPTA	Ph.D	2017	Delhi Technological University, Delhi	TCAD Analysis and Simulation of Gate Electrode Workfunction Engineered(GEWE) Silicon Nanowire MoSFET for High Performance Analog and RF Applications
18	Mr. VIBHAV NARAYAN SINGH	UGC-NET	2017	UGC-NET	Physical Science
19	Dr. SEEMA SHUKLA	Ph.D	2010	University of Lucknow	Generation of Computational Morphology Using Finite State Automata for Indian Languages, Specially Hindi
20	Dr. ANJALI YADAV	Ph.D	2015	Banaras Hindu University	Financial Performance of Steel Authority of India Limited
21	Dr. GAYATRI PARHI	Ph.D	2014	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Approval of value added services and their impact on sale of two wheelers in India
22	Dr. ASHISH SHARMA	Ph.D	2016	Jodhpur National University, Jodhpur	Interconnection Networks of Core in Multicore Processor
23	Dr. SUCHITA HOTWANI	Ph.D	2015	Banasthali Vidyapith	Computer Science and Engineering
24	Dr. MAHAMAYA MOHANTHY	Ph.D	2014	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore	Analysis of Human Expression using Soft Computing Techniques
25	Dr. MAHESH KUMAR SINGH	Ph.D	2016	University of Kota	Knowledge-based Recommendation System for E-business Analysis using Web mining Techniques
26	Dr. NISHA SHARMA	Ph.D	2019	Invertis University, Bareilly	Some Approaches for Continuous User Authentication using Multi Biometric Traits
27	Mr. ASHISH PATEL	UGC-NET	2017	UGC-NET	Computer Science & Application
28	Dr. VAISHALI	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
29	Dr. SUNIL NARULA	Ph.D	2013	The Birla Institute of Technology & Science	Computer Science
30	Dr. AADARSH MALVIYA	Ph.D	2019	Jagannath University, Jaipur	Towards Expert Systems for Enhancing Quality of Services in Cloud Computing



31	Dr. ARPITA GUPTA	Ph.D	2010	Sant Gadge Baba Amravati University, Maharashtra	Study the Capacitance of Normal and Abnormal Cell and Its Significance Related to Diseases
32	Dr. MANOJ KUMAR PANDEY	Ph.D	2016	Kurukshetra University , Kurukshetra	Design & Characterization of Compact Ultra-Thin Metamaterial Absorbers for Narrowband and Wideband RF Applications
33	Dr. AMBIKA BENIWAL	Ph.D	2016	Jayoti Vidyapeeth Women's University	Computer Science
34	Dr. JOSHICA RANA	Ph.D	2015	Dayalbagh Educational Institute, Agra	Human Resource Accounting and Disclosure Practices in Indian Companies(A Comparative Study of Public and Private Sector Companies)
35	Dr. LILY GUPTA	Ph.D	2019	Zamia Millia Islamia	A Novel UWB Planar Antenna for Biomedical Applications based on CB - CPW Technique
36	Dr. VIKRAM KUMAR	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University	Design Studies of TM01 to TM11 Sectoral Waveguide Mode Converters for the High Power Microwave Systems
37	Dr. SANGHAMITRA VIKAS ARORA	Ph.D	2017	University of Rajasthan, Jaipur	Short Utterance Based Speaker Identification System for Resource Constrained Devices
38	Dr. RASVEEN	Ph.D	2017	Jayoti Vidyapeeth Women's University	Electronics and Communication Engineering
39	Dr. HARI MOHAN RAI	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology,(ISM) Dhanbad	Detection of Fatal Diseases From Biomedical Signals and Images Using Hybrid Deep Neural Network Models
40	Dr. SHWETA GUPTA	Ph.D	2018	Thapar University, Patiala	Peak to Average Power Ration Reduction of OFDM Signals Using Peak Reduction Carriers
41	Dr. SHEETAL YADAV	Ph.D	2004	CCS Haryana Agricultural University	Inter Simple Sequence Repeat Marker Analysis of Rice Genotypes Differing in Salinity Tolerance
42	Dr. UMA N V	Ph.D	2015	Deenbandhu Chotu Ram University of Science and Technology	Investigations on Converter Topologies for Off-Shore Wind Energy Conversion Systems
43	Dr. NEETIKA ARORA	Ph.D	2013	Kurukshetra University , Kurukshetra	Synthesis and Characterization of Electrodeposited Copper Telluride and Zinc-Copper-Telluride Nanowires
44	Dr. GUNJEET KAUR	Ph.D	2019	Baba Masthnath University, Asthal Bohar, Rohtak	Electronics and Communication
45	Ms. MANISHA BISHT	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
46	Ms. PAYAL GARG	UGC-NET	2016	UGC-NET	Electronics Science
47	DR. K K SAINI	Ph.D	2003	Chaudhary Charan Singh University,	Process Monitoring, Fault Diagnosis and Quality &



				Meerut	Prediction Methoda Based Management on the Multivariient Statistical Technologies in Electronics & Computer Engineering Fields.
48	Dr. SANGEETA MANGESH KARYAKARTE	Ph.D	2016	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Quantum Transport in Nanostructures
49	Dr. PRANAY BHADAURIA	Ph.D	2016	GLA University, Mathura	Studies on Weld Bead Geometry, Wear Behavior and Mechanical Properties of Nano Structured Weld Surfacing
50	Dr. PALLAVI VERMA	Ph.D	2016	Delhi Technological University, Delhi	Control of Solar PV System based microgrid for Enhanced Performance
51	Dr. SWATI GOEL	Ph.D	2011	Amity University, Uttar Pradesh	Computer Science
52	Dr. EVA AGARWAL	Ph.D	2013	Indian Institute of Technology, Madras	Computer Science and Engineering
53	Dr. MANSI GOEL	Ph.D	2016	Dayalbagh Educational Institute, Agra	A Study of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Occupational Role Stress on Organizational Citizenship Behavior among Information Technology(IT) Professionals in India
54	Dr. SUSHIL KUMAR BAGGA	Ph.D	2010	Bhartiya Shiksha Parishad Uttar Pradesh	Three Dimensional Fluid Dynamics and Heat Transfer in the Collision of a Microdroplet with a Moving or Stationary Surface
55	Dr. TARANG AGARWAL	Ph.D	2016	Shobhit University, Meerut	Mechanical Engineering
56	Dr. SHILPA SEN	Ph.D	2015	Patna University	Commerce
57	Dr. ANTARIKSH GUPTA	Ph.D	2014	Gautam Buddh Technical University, Lucknow	Fdevelopment and Analysis of AIR ENGINE
58	Dr. LAVISH SINGH	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Kharagpur	Synthesis and Evaluation of Multi-Seale Mechanical Properties of Spark Plasma Sintered Bimodal Al-CNT Nanocomposities
59	Dr. VINEET KUMAR YADAV	Ph.D	2019	Indian Institute of Technology, Roorkee	Investigations on Rotary Tool Near-Dry Electrical Discharge Machining Process
60	Dr. K KAMAL	Ph.D	1988	Indian Institute of Science, Bangalore	Study of Vitrination, Bucking and Flotter Problems of Composite Laminates
61	Dr. AJAY SINGH	Ph.D	2008	Bundelkhand University	Vertical Mobilization of Women in Corporate Management(A Study of Service Sector Industries with Special reference to 5-Star Hotels in Delhi & NCRs of



					India)
62	Dr. SURABHI SARA RAVINDRAN	Ph.D	2016	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	Work-Life Balance of Women Executives in IT Sector: A Study in Delhi and NCR
63	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2012	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Impact of New Economic Reforms on Empowerment of Rural Women in India (with special reference to Aligarh District of U.P.)
64	Dr. SUNIL KUMAR SHARMA	Ph.D	2017	Indian Institute of Technology(ISM), Dhanbad	Performance and Emission Analysis of Diesel Engine By Using Jatropa Biodiesel and Tyre Pyrolysis Oil Mixed with Nano Additives
65	Dr. VICTOR DUTTA	Ph.D	2017	Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, UP	Watermarking for Medical Images
66	Dr. RAJDHARI SINGH	Ph.D	2019	Shobhit Institute of Engineering & Technology, Meerut	A Comparative Study of Motivational Factors for Employees of Public and Private Sector Bank in Meerut District
67	Dr. SAHAB SINGH	Ph.D	2014	Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra	Mergers and Acquisitions - An Analysis of Post - Mergers Performance of Companies in Pharmaceutical Industry (An Empirical Story)
68	Dr. VANDANA PAREEK	Ph.D	2012	Banaras Hindu University	Relational Impact Study of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Banking Industry
69	Dr. SHALINI YADAV	Ph.D	2015	University of Delhi	Potential-Based multi-objective reinforcement Learning approaches to low-impact agents for AI Safety
70	Dr. NEELAM BHARDWAJ	Ph.D	2018	Jayoti Vidyapeeth Women's University	A Study on Work-Life Balance of Women employees in Engineering Colleges in GB. Nagar and Ghaziabad
71	Ms. ANU JAIN	UGC-NET	2014	UGC-NET	Management

Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Serial No. 182015

Enrolment No. 15920048

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की

अभिषद् की श्रद्धांश पर
विद्या वाचस्पति
की उपाधि

विनीत कुमार यादव
को

होम प्रबन्ध डॉ. विनीत कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का विषय: इलेक्ट्रोरोटरी टूल निम्न-दाई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस
भारतीय गणराज्य के अन्तर्गत रुड़की में आज, दिनांक अक्टूबर 4, 2019, संस्थान की मुद्रा अंकित यह उपाधि दी गई।

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE

on the recommendation of the Senate hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy

upon

VINEET KUMAR YADAV

Thesis Title: INVESTIGATIONS ON ROTARY TOOL NEAR-DRY ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING PROCESS

Given this day, October 4, 2019, under the seal of the Institute at Roorkee in the Republic of India.


कुलसचिव
Registrar


अध्यक्ष, अभिषद् एवं निदेशक
Chairman, Senate & Director




Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Indian Institute of Science, Bangalore.



Faculty of Engineering

The Council on the recommendation of the Senate of the Institute
hereby confers on

KULSHREETHA KAMAL

the degree of

Doctor of Philosophy

in recognition of the research work on

" Study of Vibration, Bending and Flutter Problems of Composite Laminates "




Director



Chairman of the Council

13 MARCH 1988

54178



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Punjabi University

Doctor of Philosophy

(In the Faculty of Science)

Certified that Vijay Kauri, Regd. No. 79-gc-412, daughter of Shri Prem Chand Sood, and of the Punjab State, has obtained the degree of Doctor of Philosophy in this University on the result of the examination held in 1991.

Given under the seal of the University

Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Controller of Examinations


Chandigarh, December 21, 1991



Vice-Chancellor

Chancellor

UNIVERSITY OF ALLAHABAD



Doctor of Philosophy in Science

This is to certify that Bunil Kumar Srivastava
has been admitted to the degree of Doctor of Philosophy
in Science in this University at the Convocation
of 2002.

University of Allahabad:
The 27th Dec, 19-2002.

Ganesh
Vice-Chancellor

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

// जीधुजा //

सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षों के प्रोत्तेजन पर विचार करने के उपरांत
अध्यक्ष और निदेशिका ने संश्लेषण आधारित रूप से 34 के परिच्छेद में सं.प्र. शिक्षा विभाग
की क्रमिक 1973 की धारा 15(1) के तहत अनुपस्थिति में निर्माणाधीन शोधार्थियों को उच्च
पढ़ाई प्रत्यक्ष प्रवेश पर उनके नाम के सम्बन्धित शिक्षा विभाग एवं विभाग में डॉक्टर और
निदेशिका की स्थापित प्रदान करने का अनुमोदन किया है।

क्रमांक	शोधार्थी/शोधार्थिका का नाम एवं पता	विभाग/स्नातक परीक्षण अंशिक व दिनांक	निदेशक का नाम एवं पता	अनुमोदन तिथि	शोध विषय
49.	Dr. Jaya Shrivastava D/o Shri K.L. Shrivastava In front of N.P.M.S. Tikangach (MP) इंद्रो तथा श्रीवास्तव	Physics Science 396-V 1.12.99	Prof. M.S. Tiwari Dept. of Physics Dr. H.S. Gaur V.V., Nagari	19.5.03	'Alien Waves in Magnetoionic Plasma'
50-वी	श्री मुखेश कुमार गहू डारा-श्री महादेवराज गहू गांधीवाड, अन्न बाजार, नागर (Shri Mukesh Kumar Gahu)	विधि विधि 20-7 19.2.99	प्रो. एच.एन. गिरि विभाग विधि विधि विभाग अतिरिक्त गौर वि.वि., नागर	19.5.03	'मातृ में स्त्रियों के सामूहिक अधिकांशों का उद्भव एवं विकास तथा सूक्ष्म विधिक असंख्यक एवं वास्तविकतात्मक अध्ययन'

अध्यापिका
श्री एन. एम. गिरि
मुख्याधिका

अतिरिक्त गौर शिक्षा विभाग, नागर [सं.प्र. 5]

प्रतिनिधि:-

1. अध्यक्ष, शिक्षा विभाग अनुदान समिति, ब्यापार मार्ग, नई दिल्ली-
2. सचिव, भारत सरकार, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली-
3. एसीओ/एन सी, बालिका प्रौद्योगिकी, प-आर्. व-बा. 18, कोटवापारी, नई दिल्ली-
4. शिक्षा, अतिरिक्त निदेशिका, राज्य एकेडमी, नई दिल्ली-
5. अध्यक्ष, सं.प्र. समिति, शिक्षा विभाग, शोधार्थ-
6. अध्यक्ष, भारत भारतीय शिक्षा विभाग-
7. संश्लेषण शोधार्थी/शोधार्थिका/शोधार्थिका शिक्षा विभाग/अध्यक्ष/अधीनस्थ अधिकारी-
8. अध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सहायक, अतिरिक्त गौर वि.वि., नागर
9. उपस्थिति/अधीनस्थ/अधीनस्थ गौर, अतिरिक्त गौर वि.वि., नागर
10. उपस्थिति/अधीनस्थ/अतिरिक्त गौर वि.वि., नागर
11. मुख्याधिका/अधीनस्थ/अधीनस्थ गौर, अतिरिक्त गौर वि.वि., नागर
12. संश्लेषण:- सं.प्र. समिति-शोधार्थ, राज्य एकेडमी-नागर, शिक्षा विभाग नई दिल्ली-नई दिल्ली, नई दिल्ली-नई दिल्ली, शिक्षा विभाग-शोधार्थ, नागर, अधीनस्थ-शोधार्थी एवं शोधार्थिका को समीप में कक्षाएं, उनके सुसंयोजित प्रदान करने की कृपा करें।



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

अधीनस्थ/अधीनस्थ

अतिरिक्त गौर शिक्षा विभाग, नागर [सं.प्र. 5]

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



विद्या वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि कामेश्वर कुमार शैली

को इस विश्वविद्यालय से सन् 2002 के दीक्षान्त समारोह में इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटेशनल विषय पर विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गयी है।

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that Kamlesh Kumar Saini
has been conferred the Degree of **DOCTOR OF PHILOSOPHY**
of this University in Technical Communication at the Convocation
of 2003.

THESIS: Process Monitoring, Fault Diagnosis and Quality Prediction
Methods Based Management for the Multivariate
Statistical Techniques in Electronics & Computer
Engineering Field.

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Serial No. 5808

Admission No. 99B387D

CCS HARYANA AGRICULTURAL UNIVERSITY



"This certificate is valid only for the award of Degree of
Dissertation. Please submit your production
of Degree after one year of the date of issue
of this Provisional Degree Certificate."

PROVISIONAL DEGREE CERTIFICATE

This is to certify that Sheetal Yadav

son/daughter of Shri Shri Krishan Yadav & Smt. Parkash, has

successfully completed the requirements of course work and thesis for the

Degree of Doctor of Philosophy of this

University in the month of February, 2004.

His/Her overall grade point average is 7.53 (4.00/10.00 basis)

which is equivalent to 75.30 per cent marks.

Hisar


Dated 1.3.2004

Asstt. Registrar (PGS)

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra
(Formerly : Agra University, Agra)



PROVISIONAL CERTIFICATE

From: Asstt. Registrar (Research)
(Confidential Unit of Research),
Dr. B. R. Ambedkar University,
AGRA - 282004 (UP)

To: Ms. Shobri Saxena,
C/o Smt. Sudha Saxena
Premier Contact Lens Centre Shivam Nagar,
Aligarh (UP)

No. Res./ 4282 / 19947

Dated 21/04/05

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that the Vice-Chancellor vide his orders dated 25/02/2005 has approved the award of Ph.D. Degree to you in ENGLISH on the topic entitled Treatment of love in the Poetry of Kamla Das

The Viva-Voce test of the Candidate was conducted on 25/02/2005

The Ph.D. Degree would be formally conferred upon you in the ensuing University Convocation.



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Yours faithfully

Asstt. Registrar (Research)
Dr. Bhimrao Ambedkar University
AGRA

TRUE COPY ATTESTED
21/04/05

जीवाजी विश्वविद्यालय



ग्वालियर

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता तोमर को
इस विश्वविद्यालय से वर्ष 2006 में अंग्रेजी विषय में
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिए योग्य घोषित किया गया है, एतदर्थ उन्हें
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की जाती है।

शोध प्रबन्ध का शीर्षक :

DOCTOR OF PHILOSOPHY

*This is to certify that SMT. MAMTA TOMAR
has been declared eligible for the award of Doctor of Philosophy
of the University in 2006 in the subject ENGLISH is
admitted to the degree of Doctor of Philosophy.*

Title of Thesis : "Shashi Deshpande, a study of feminine-sensibility in her novels"

JWAJI UNIVERSITY, GWALIOR (M.P.) INDIA

Date 25 APR 2006

Issued on 22 January 2006

Anapete
KULPATI

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय BUNDELKHAND UNIVERSITY



विद्या - वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि अजय सिंह को
इस विश्वविद्यालय से प्रबन्धन विषय पर
विद्या-वाचस्पति की उपाधि वर्ष 2008 में प्रदान की गयी।

उक्त उपाधि के लिये आपने निम्न विषय पर मौलिक प्रबन्ध प्रस्तुत किया।
"Vertical Mobilization of Women in Corporate Management."
"(A Study of Service Sector Industries With Special reference to
-5-Star Hotels in Delhi & NCRs of India)"

Doctor of Philosophy

This is to certify that Ajay Singh
has been admitted to the Degree of Doctor of Philosophy
in Management in the University in 2008

The subject on which he/she presented a Thesis for the
Degree was "Vertical Mobilization of Women in Corporate
Management." (A Study of Service Sector Industries With Special
reference to 5-Star Hotels in Delhi & NCRs of India)

Bundelkhand University

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

प्लॉट नं. 22, गान्धीनगर, लखनऊ

Phone: 2208-2208

Date: 2 - JAN 2009

Chancellor

Chancellor

कुलसचिव
Registrar

Valar

कुलपति
Vice-Chancellor

Push

Director

क्रमांक / Serial No.

12027952

चर्यांकन सं. / Enrolment No.

M-9954768

अनुक्रमांक / Roll No.

XXX

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ




विद्या वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि ममता भारद्वाज
आत्मज / आत्मजा श्री ओ० पी० शर्मा एवं श्रीमती के० शर्मा
को इस विश्वविद्यालय के सन् २०१० के दीक्षान्त समारोह में रसायन
विषय पर विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदत्त की गयी है ।

DOCTOR OF PHILOSOPHY


This is to certify that MAMTA BHARDWAJ
Son / Daughter of Shri. O.P. SHARMA *and Smt.* K. SHARMA
has been conferred the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY
of this University in CHEMISTRY *at the Convocation*
of 2010

शीर्षक / Title : "STUDIES OF SOME DIVALENT AND TRIVALENT
TRANSITION METAL CHELATES DERIVED FROM
THIOCARBOHYDRAZIDE AND A DIKETONE."



CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

Dated 19th FEBRUARY, 2010


कुलपति
Vice-Chancellor

Mahatma Gandhi University



FACULTY of *Science*

The Syndicate of the Mahatma Gandhi University
hereby makes known that

Vandana K

has been admitted to the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

in *Chemistry*

he/she having been certified by duly appointed
examiners to be qualified to receive the same.

Title of the Thesis: **STUDIES OF DNA BASE RADICAL
CATIONS USING ANTHRAQUINONE
PHOTOSENSITIZATION AND RADIATION-
INDUCED PRECURSORS OF ADENINE NITROGEN-
CENTERED RADICALS.**

Given under the seal of the University

Date of Syndicate Decision: **13.12.2010**

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

MAHATMA GANDHI UNIVERSITY
PRIYADARSHINI HILLS
KOTTAYAM, KERALA

Date: **29 January 2011**



Vice-Chancellor

लखनऊ विश्वविद्यालय



यत्नः सीमा शुक्ला ने
इस विश्वविद्यालय के कला संकाय में डॉक्टर ऑव फिलॉसफी की उपाधि हेतु
लिंग्विस्टिक विषय में निर्धारित शोध-कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पर्याप्त योग्यता का
शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया जो ज्ञान के क्षेत्र में एक मौलिक देन है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑव
फिलॉसफी की उपाधि सन 2010 में प्रदान की गई।

University of Lucknow

Whereas **SEEMA SHUKLA** having
completed at the University a prescribed course of research for the Degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY in **LINGUISTICS** in the Faculty of **ARTS** and
has presented a thesis of sufficient merit as an original contribution to knowledge.

This is to certify that he/she has been duly admitted to the Degree of **DOCTOR
OF PHILOSOPHY** of this University in the year 2010.

Title of the thesis : "Generation of Computational Morphology Using Finite State
Automata for Indian Languages, Specially Hindi "



लखनऊ, उ.प्र. (भारत)
Lucknow, U.P. (INDIA)
दिनांक / Dated : 12 January, 2011



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

कुलपति

Vice-Chancellor




विज्ञान व तंत्रज्ञान आचार्य
Doctor of Philosophy
(Faculty of Science and Technology)

This is to certify that
Mrs. Arpita Ravindra Gupta
having been found to be duly qualified on
examination of the thesis on

*Study The Capacitance Of Normal And Abnormal Cell And Its Significance
Related To Diseases*

was admitted to the degree of
Doctor of Philosophy in the subject **Electronics & Telecomm. Engg.**
in the faculty of **Science and Technology** in this University in the year 2010.

Amravati:
23.02.2011



Phond

Vice-Chancellor

Arpita

Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

S. No. 2807

Enrollment No. E-5195/08

BHARTIYA SHIKSHA PARISHAD UTTAR PRADESH



Doctor of Philosophy Programme (Ph.D)

This is to certify that **SUSHIL KUMAR BAGGA**
Son/ Daughter/ Wife of Shri **SARDARI LAL BAGGA** has
been awarded the *Doctor of Philosophy Programme (Ph.D.)* by this Parishad in
the year **2010** at the convocation held in the year **2010** at Lucknow.

The subject on which he/she presented a thesis for the Programme was
**THREE DIMENSIONAL FLUID DYNAMICS AND HEAT TRANSFER IN THE COLLISION
OF A MICRODROPLET WITH A MOVING OR STATIONARY SURFACE**


Given under the seal of
Bhartiya Shiksha Parishad, Uttar Pradesh.

Lucknow-227506 (India)

Date: 10 JUL 2010

Director

DIRECTOR



Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



AMITY UNIVERSITY

UTTAR PRADESH

with full honour confers upon


Vaishali Sudhakar Mudkhedkar


the Degree of


**Doctor of Philosophy (D. Phil.)
(Computer Science)**

*with all its rights and privileges, in witness whereof
the seal of the University is hereunto affixed
on this 11th day of December, 2011*




Vice Chancellor


Director


Chancellor



AMITY UNIVERSITY

UTTAR PRADESH

with full honour confers upon


Swati Goyal


the Degree of


**Doctor of Philosophy (D. Phil.)
(Computer Science)**

*with all its rights and privileges, in witness whereof
the seal of the University is hereunto affixed
on this 11th day of December, 2011*




Vice Chancellor


Director


Chancellor

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय
 MAHATMA JYOTIBA PHULE RORILKHAND UNIVERSITY



विद्या वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि रितु सौरभान को
ज्योतिषी विभाग में वर्ष 2012 में विद्या वाचस्पति की
 उपाधि प्रदान की गयी।

उक्त उपाधि के लिए प्रस्तुत
 शिरोधार्य आर्सेलोग्गी स्पष्ट इष्ट रेल इन नेच्यु फारमेशन - ए थैमेटिक
 क्वेरी डेस ए नोवेलस ऑफ रल रल भारती

समक का प्रीय प्रवरा प्रस्तुत किया।

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that Ritu Soryan
 has been awarded the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in 2012 in
English at this University


The title of thesis which he/she submitted was
Religious Orthodoxy and its role in Value Formation -
A Thematic study of the Novels of L. H. Myers

बरेली / BAREILLY
 दिनांक / Date 26-5-2012

[Signature]
 कुलपति
 VICE CHANCELLOR

[Signature]

Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra
(Formerly : Agra University, Agra)



PROVISIONAL CERTIFICATE

From,

Asstt. Registrar (Research)
(Confidential Unit of Research)
Dr. B.R. Ambedkar University,
AGRA-282004 (UP)

To,

Mr. Sahab Singh,
Plot No. 76 P, Sector 5
Part III,
Gurgaon, (Haryana) 122001

No. Res./ 8127/2012

Dated. 15/09/12

Enrolments No. 9224145

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that the Vice-Chancellor vide his orders dated 10/09/2012 has approved the award of Ph.D. Degree to you in Applied Business Economics (Commerce) on the topic entitled Impact of New Economic Reforms on Empowerment of Rural Women in India (with special reference to Aligarh District of U.P.)

The Viva-voce test of the Candidate was conducted on 29/09/2012

The Ph.D. Degree would be formally conferred upon you in the ensuing University Convocation

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Yours faithfully,

Asstt. Registrar (Research)
1 Asstt. Registrar (Research)



काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
Banaras Hindu University
संस्थापित 1916

082264112



सुश्री वन्दना पारीक इति-नाम्नी

२०१२ तमे इसवीयवर्षे मैनेजमेन्ट स्टडीज इति विषये

मैनेजमेन्ट स्टडीजविभागे विश्वविद्यालयम्यास्य

डाक्टर ऑफ फिलसाफी इत्युपाधिं प्राप्नोविति प्रमाणयति।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री वन्दना पारीक

को सन् २०१२ की मैनेजमेन्ट स्टडीज विषय में

मैनेजमेन्ट स्टडीज विभाग से

इस विश्वविद्यालय की डाक्टर ऑफ फिलसाफी उपाधि प्रदान की गई।

This is to certify that Ms. Vandana Pareek,

has been admitted to the degree of Doctor of Philosophy in the subject

Management Studies from the Department of Management Studies

of this University of the year 2012.

Title of the Thesis - Relational Impact Study of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Banking Industry

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

कुलपति

Vice-Chancellor

स्थान : काशी
Place : Varanasi

दिनांक Dated : FEB 24, 2013

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY



महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विद्या वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि राकेश कुमार शर्मा को
उपाधि प्रदान की गयी।
उक्त उपाधि के लिए इन्होंने
ए. फिलॉसॉफी इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन इन लाइफ इन्सुरेंस
कार्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ इंडिया
शीर्षक का शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया।

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that Rakesh Kumar Sharma
has been admitted to the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in 2013 in
Commerce in this University.

The Title of thesis which he / she submitted was
A Critical Evaluation of Human Resource Development procedures and practices in Life
Insurance Corporation (LIC) of India

बरेली / BAREILLY
दिनांक / Date 19/10/2013

कुलपति
VICE CHANCELLOR

Director



Indian Institute of Technology, Madras

hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy

Computer Science & Engineering

on

EVA AGGARWAL

*Given this day the Thirtyfirst of July, 2013
under the seal of the Institute.*



[Signature]
Registrar

[Signature]
Director

[Signature]
Chairman Board of Governors

[Signature]

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

The Birla Institute of Technology & Science

Upon the Recommendation of the Senate hereby confers on

Sunil Narula

The Degree of

Doctor of Philosophy

In

Computer Science



in recognition of having attained proficiency in the General and Special Studies and having fulfilled all the requirements of the degree.

Given this ninth day of August, two thousand thirteen under the Seal of the Birla Institute of Technology & Science at Pilani in the State of Rajasthan, India.


DIRECTOR


REGISTRAR




CHANCELLOR


VICE-CHANCELLOR



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालयः, कुरुक्षेत्र

(1956 तम-वर्षगत-राज्यविधिविक-अधिनियम-XII द्वारा स्थापित)
(ए-ग्रेड, नाक-प्रमाणित)

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसॉफी

इदमत्र प्रमाणीक्रियते यत् नितिका अरोरा श्री श्याम सुंदर अरोरा

महोदयस्य पुत्रः/पुत्री 2013 तमे संवत्सरे विज्ञान संकाय

तोऽस्य विश्वविद्यालयस्य इलैक्ट्रॉनिक साइंस विषये

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसॉफी इत्युपाधिना समलङ्कृत/समलङ्कृता-इति।

अस्य/अस्याः शोध-प्रबन्धस्य विषयः सिर्येसिस एण्ड करैक्टराईजेशन ऑफ़ इलैक्ट्रोडिपोजिटिड

कॉपर टैल्युराइड एण्ड जिंक-कॉपर-टैल्युराइड नैनोवायरस इत्यासीत्।

Kurukshetra University, Kurukshetra

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
(*A* Grade, NAAC Accredited)

Doctor of Philosophy

*This is to certify that Neelika Arora son/daughter of Shri Shyam Sunder Arora
and of the Faculty of Science*

*has been awarded the Degree of Doctor of Philosophy (Electronic Science)
of this University, in 2013*

*The topic of his/her Thesis was "Synthesis and Characterization of
Electrodeposited Copper Telluride and Zinc-Copper-Telluride
Nanowires"*

कुरुक्षेत्रे, तिथिः अक्तूबरः १४, २०१३
Kurukshetra, Dated: October 14, 2013

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

कुलसचिवः
Registrar

कुलपतिः
Vice-Chancellor

कुलधिपतिः
Chancellor




Doctor of Philosophy

This is to certify that Sahab Singh

has been admitted to the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in
Accounts & Law (Commerce) in this University in the Convocation of **2014**

The Topic on which he/she presented a thesis for the degree was "Mergers
and Acquisitions - An Analysis of Post - Mergers Performance of Companies in
Pharmaceutical Industry (An Empirical Study)"

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
Dr. B.R. AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA
३०, सितम्बर, २०१४
SEPTEMBER 30, 2014


कुलसचिव
Registrar


कुलपति
Vice-Chancellor



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

ENGLISH TRANSLATION

FORMERLY KNOWN AS UNIVERSITY OF INDORE



DOCTOR OF PHILOSOPHY

Certified that Mahamaya Mohanily

obtained the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY

in Computer Science under the Faculty of

Engineering Science in the year 2014

Title of Thesis "Analysis of Human Expression
using Soft Computing Techniques"

Dated Dec. 31, 2014
date of issue


Vice-Chancellor

8 JAN 2015



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Serial No. : 14001773

Enrolment No. : M-0700057

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Chaudhary Charan Singh University, Meerut



विद्या वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि गायत्री परही
आत्मज / आत्मजा श्री रतनार परही एवं श्रीमती मालती परही
को इस विश्वविद्यालय के सन् 2014 के दीक्षान्त समारोह में
वाणिज्य विषय पर विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदत्त की गयी है।

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to Certify that **Gayatri Parhi**
Son/Daughter of **Shri Ratanar Parhi** and **Smt. Malti Parhi**
has been conferred the Degree of **DOCTOR OF
PHILOSOPHY** of this University in **Commerce** at the Convocation
of **2014**.

Topic: Tax Appraisal of Value Added Services and Their Impact On Sale of Two Wheelers in
India

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



Chaudhary Charan Singh University Meerut
Dated: 06-12-2014

Vice-Chancellor

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय



(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ)

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की अनुशंसा पर

अन्तरिक्ष गुप्ता

को इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय के अन्तर्गत **मेकेनिकल इंजीनियरिंग** विद्या में
विद्या वाचस्पति की उपाधि

उनके द्वारा इस उपाधि की अर्वापित हेतु
विश्वविद्यालय द्वारा विहित अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने पर
एतद्वारा सन् 2014 में प्रदान की जाती है।


Gautam Buddha Technical University
(Formerly Uttar Pradesh Technical University, Lucknow)

*Upon the recommendation of the Academic Council,
the University hereby confers the degree of
Doctor of Philosophy
in the field of Mechanical Engineering of the faculty of Engineering & Technology
upon*

ANTARIKSH GUPTA

*who has successfully completed the requirements prescribed by the University
for the award of this degree in the year 2014.*

Title of Thesis – **DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF AIR ENGINE.**



Director

(कृपा शंकर)
कुलपति
(Kripa Shanker)
Vice-Chancellor

Electronic Certificate No.: 132013057



University Grants Commission
NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU



NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

UGC Ref. No.: 13057/(NET-DEC. 2013)

Roll No.: 17170321



Certified that ANU JAIN

Son/Daughter of PAWAN KUMAR JAIN

and KANTA DEVI JAIN

has qualified

the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held on 29-12-2013

in the Subject MANAGEMENT

The date of qualifying NET is 21st April, 2014, which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the UGC by the employer through www.ugcnetonline.in. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Director

Dronacharya Group of Institutions

27, KP-III, Greater Noida-201306

Head
NET Bureau

Date of Issue: 03-07-2014

Note a) UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the Commission is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET within two years from the date of declaration of UGC-NET result.

b) Wherever PWD is shown in the UGC Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE ESTABLISHED BY AN ACT OF PARLIAMENT

सुश्री अंजली यादव इति—नाम्नी
२०१५ तमे ईसवीयवर्षे कामर्स
इति विषये कामर्सविभागे विश्वविद्यालयस्यास्य
डाक्टर ऑफ फिलॉसॉफी इत्युपाधिं प्राप्नोदिति प्रमाणवति ।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री अंजली यादव
को सन् २०१५ की कामर्स
विषय में कामर्स विभाग से
इस विश्वविद्यालय की डाक्टर ऑफ फिलॉसॉफी उपाधि प्रदान की गई ।

*This is to certify that Ms. Anjali Yadav
has been admitted to the degree of Doctor of Philosophy in the subject
Commerce from the Department
of Commerce of this University of the 2015.*

Title of the Thesis - Financial Performance of Steel Authority of India Limited

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

स्थान : वाराणसी
Place : Varanasi

दिनांक Dated **FEB 19, 2016**

कुलपति:

Vice-Chancellor

No. 71793

Serial No. 108/2014
Registration No. 142/2013

PATNA UNIVERSITY



This is to certify that

Shilpa Sen

who passed the Examination

for the degree of

Doctor of Philosophy in Commerce

held in the month of

June 2015

was this day admitted

to the degree

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. S. D.'.

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Patna University
The 20 August, 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. C. P. ...'.

Vice-Chancellor

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
DR. BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA



(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)
(Formerly- Agra University, Agra)

Doctor of Philosophy

This is to certify that Shaifali Agarwal

Babu Shyamath Agarwal College, Mathura

*has been admitted to the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in
Mathematics*

in this University in the Convocation of 2015

The Topic on which he/she presented a thesis for the degree was

"A Study of Non-Linear Optimization Techniques."

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
DR. B. R. AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA

३० सितंबर, २०१५

SEPTEMBER 30, 2015

सुसमा खर
Registrar

सुसमा खर
Vice-Chancellor

क्रम संख्या—

38595

तिलका सांझी भागलपुर विश्व विद्यालय



भागलपुर

अस्थायी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पवन कुमार शर्मा ने

मार्च

मास में जायोजित सन् 2015 ई०

की पी.एच.डी. (विज्ञान संकाय) यू.जी.सी. शोध परिनियम की परीक्षा में

XXX

श्रेणी I वर्ग में उत्तीर्णता प्राप्त की है।

2015 के अन्तर्गत

ब्रह्माविश्व

25.1.2015
कुलसचिव

दिनांक 20 जनवरी 2015

स. व. का मुख्यालय

कार्यालय/प्रचारक कुलसचिव

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

सर्वज्ञ विश्वविद्यालय



थिस: तोजस्वी दूबे ने इस विश्वविद्यालय के वाणिज्य शाखा में डॉक्टर ऑव फिलॉसफी की उपाधि हेतु अप्लाइड इकोनॉमिक्स विषय में निर्धारित शोध-कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पर्याप्त योग्यता का शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया जो ज्ञान के क्षेत्र में एक मौलिक देन है।

अस: प्रमाणित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डॉक्टर ऑव फिलॉसफी की उपाधि सन् 2015 में प्रदान की गई।

University of Lucknow

Whereas TOJASAVI DUBEY having completed at the University a prescribed course of research for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in APPLIED ECONOMICS in the Faculty of Commerce and has presented a thesis of sufficient merit as an original contribution to knowledge.

This is to certify that he/she has been duly admitted to the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY of this University in the year 2015

Title of the thesis : Adoption of innovation Banking practices in Private Sector Banks (with special reference to ICICI Bank, HDFC Bank and UTI Bank).

लखनऊ (भारत)
Lucknow (INDIA)
दिनांक

Dated : February 03, 2016



म. कु. मिश्र
कुलपति
Vice Chancellor

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Serial No. N1528002

Enrollment No. 08408242

JAYPEE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY

(Declared as Deemed to be University U/S 3 of UGC Act, 1956)

NOIDA



Upon approval of the Board of Management, hereby confers the Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

on

Rakhi Madanrao Motghare

in the Field of

ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING

Singal
Registrar


Arora
Vice - Chancellor

Noida
07 August 2015

Arora

Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Enrolment. No.
2015/3245



वनस्थली विद्यापीठ

विद्यापीठ द्वारा निर्धारित
सभी अर्हताएँ पूरे करने पर

सुचिता होतवानी को

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसॉफ़ि

कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग

को उपाधि में आज के दिन दीक्षित किया गया।
प्रमाण स्वरूप विद्यापीठ को मुद्रा एवं कुलपति के
हस्ताक्षर अंकित किये जाते हैं।

BANASTHALI VIDYAPITH

On having fulfilled the requirements
laid down by the Vidyapith

Suchita Hotwani has been

admitted this day to the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

Computer Science and Engineering

In token whereof are inscribed the seal of the Vidyapith
and the signature of the Vice-Chancellor.



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

तारीख
Date 26 October, 2015

कुलपति
Vice-Chancellor



DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that..... Shalini Yadav.....
after approval of his/her thesis on. Potential-based..
multi-objective reinforcement learning approaches..
to low-impact agents for AI safety.....
in..... December,..... 2015, has been admitted to
the degree of Doctor of Philosophy in this University
at the Convocation held in 2015.



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Vice-Chancellor,
University of Delhi.



Registrar,
University of Delhi.

Delhi, dated the 24th February, 2015

R. No. DCRUST/Result/3769

Dated 5-8-15


Provisional Degree Certificate

Doctorate of Philosophy

It is certified that the Research Degree Committee in its meeting held on 18.07.2015 has recommended to award the degree of Doctorate of Philosophy to Ms. Uma N.V. Daughter of Smt. Vidisha (Mother) and Sh. Viswanath Singh (Father), Regn. No. 11001502004 a student of Department of Electrical Engineering in the Faculty of Engineering & Technology vide notification No. DCRUST/Secy/566-605, dated 23.07.2015.

Title of Thesis: Investigations on Converter Topologies for Off-Shore Wind Energy Conversion Systems.

The original degree shall be awarded at the time of Convocation.


Deputy Registrar (Result)
For Controller of Examinations



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

05/08/2015



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

Central Board of Secondary Education

Examination Results 2015

Brought to you by [National Informatics Centre](#)

CBSE-UGC NET RESULT - December 2015

Roll No	10021618
Candidate Name	PAYAL GARG
Subject	(088) Electronic Science

PAPER	PAPER-1	PAPER-2	PAPER-3	GRAND TOTAL
MARKS OBTAINED	84	55	155	228
MAXIMUM MARKS	100	100	150	350
PERCENTAGE (%)	84.00	55.00	79.67	64.57

Remark	QUALIFIED FOR ASSISTANT PROFESSOR ONLY
--------	--

[Please click here for Subject-wise/category-wise cut-off for Assistant Professor and JRF](#)

Disclaimer: Neither NIC nor CBSE is responsible for any inadvertent error that may have crept in the results being published on NET. The results published on net are for immediate information to the examinees. The result declared is provisional subject to fulfilment of eligibility conditions.

Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Serial No. 04031742400

Registration No. 08191010

Deenbandhu Chhotu Ram University of Science & Technology Murthal (Sonapat), Haryana

(Established Under Haryana Legislature Act No. 29 of 2006 and Recognized Under 12(B) of UGC Act, 1956)

Doctor of Philosophy

This is to certify that KUNTALA MUKHERJEE son/daughter of

smt. SABITA MUKHERJEE (mother)

and shri. BISWA RANJAN MUKHERJEE (father)

registered in DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING

is hereby awarded the degree of **Doctor of Philosophy**.

Title of thesis

Computational Modelling of Retinal Electrical Stimulation

Date of notification 02.06.2015

Given under the seal of the University

MS Sharma
Controller of Examinations

KPS
Registrar

Murthal (Sonapat)



TK
Chairman

[Signature]
Chairman

[Signature]

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Chand March 08, 2016

Dayalbagh Educational Institute
(Deemed University)
Dayalbagh, Agra



Faculty of Commerce

Joshika Rama

having presented a thesis on the topic

HUMAN RESOURCE ACCOUNTING AND DISCLOSURE

PRACTICES IN INDIAN COMPANIES [A COMPARATIVE

STUDY OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR COMPANIES]

and passed the prescribed examinations has been admitted

in the year 2015 to the Degree of

Doctor of Philosophy

in the Department of Accountancy & Law
of this Institute.

Roll No. —

Dated 23 November, 2015

Arundhan

Registrar

Prem Kumar Mishra

Director

Director

Dayalbagh Educational Institute
(Deemed University)
Dayalbagh, Agra



Faculty of Social Sciences

MANSI GOEL

having presented a thesis on the topic

A STUDY OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT, JOB SATISFACTION AND OCCUPATIONAL ROLE STRESS ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AMONG INFORMATION TECHNOLOGY (IT) PROFESSIONALS IN INDIA

and passed the prescribed examinations has been

admitted in the year 2016 to the degree of

Doctor of Philosophy

in the Department of Management

of the Institute.

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Roll No. ---

Dated 12 January, 2017

Registrar
Director

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

हम, राजस्थान विश्वविद्यालय के
कुलाधिपति, कुलपति तथा सेनेट के सदस्य प्रमाणित करते हैं कि
विश्वविद्यालय व्यावसायिक प्रशासन विभाग, वाणिज्य संकाय में

प्रीति ठाकुर
को शोध प्रबन्ध

Emerging Technologies in Banking Sector : A Comparative Study of SBI and ICICI Bank

10-05-2016 को स्वीकृत होने के उपरान्त

डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी

की उपाधि प्रदान की गई।

प्रमाण-पत्र इस विश्वविद्यालय की मुद्रा और कुलपति के हस्ताक्षर से अंकित किया जाता है।

*We, The Chancellor, Vice-Chancellor
and the Members of the Senate of the*

University of Rajasthan

Jaipur

Certify that

Preeti Thakur

of the University Department of Business Administration, Faculty of Commerce

has been conferred the Degree of

Doctor of Philosophy

after approval of the thesis

Emerging Technologies in Banking Sector : A Comparative Study of SBI and ICICI Bank

on 10-05-2016.

*In Testimony whereof are set the Seal of the said University and the
signature of the said Vice-Chancellor.*



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

कुलपति

Vice-Chancellor



Jaipur, Dated : 11-06-2016

क्रमांक : 195
Serial No.



अनुक्रमसंख्या : 98-SETK-167
Regn. No.

कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालयः, कुरुक्षेत्र

(1956 तम-वर्षगत-राज्यविद्यापिका-अधिनियम-XII-द्वारा स्थापितः)

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसॉफी

इदमत्र प्रमाणीक्रियते यत् मनोज कुमार पांडे श्री कृष्णा कांत पांडे

महोदयस्य पुत्रः/पुत्री २०१६ तमे संवत्सरे इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय

तोऽस्य विश्वविद्यालयस्य इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विषये

डॉक्टर ऑफ़ फ़िलॉसॉफी इत्युपाधिना समलङ्कृत/समलङ्कृता-इति।

अस्य/अस्याः शोध-प्रबंधस्य विषयः " संकीर्ण बैंड और विस्तृत बैंड आर एफ अनुप्रयोगों के लिए सघन बहुत पतले मेटामेटिरियल अवशोषकों की रचना और लक्षण वर्णन " इत्यासीत्।

Kurukshetra University, Kurukshetra

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Doctor of Philosophy

This is to certify that Manoj Kumar Pandey son/daughter of Shri Krishna Kant Pandey,

and of the Faculty of Engineering & Technology

has been awarded the Degree of Doctor of Philosophy (Electronics &

Communication Engineering)

of this University, in 2016

The topic of his/her Thesis was "Design & Characterization of Compact Ultra-thin Metamaterial Absorbers for Narrowband and Wideband RF Applications"

कुरुक्षेत्रे, तिथिः नवंबर ८, २०१६

Kurukshetra, Dated: November 8, 2016

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

परीक्षा नियंत्रकः
Controller of Examinations

कुलसचिवः
Registrar

कुलपतिः
Vice-Chancellor

कुलसचिवः
Chancellor

SHOBHIT INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

A Deemed to-be-University established u/s 3 of UGC Act, 1956
(Formerly known as Shobhit University, Meerut)

Meerut, India



Upon the recommendation of the Academic Council
hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy in Management on *Surabhi Ravindran*

who has successfully completed the prescribed course of studies on
the topic entitled:-

"Work-Life Balance of Women Executives' in IT Sector: A Study in Delhi and
NCR"

Given under the seal of the University on Twenty Fifth day of
September, Two Thousand Sixteen at Meerut, Uttar Pradesh,
Republic of India.



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Registrar

Vice-Chancellor

Chancellor

UNIVERSITY OF KOTA, KOTA



PROVISIONAL CERTIFICATE

S.No.: **000480**

Certified that thesis on the Title Knowledge-based Recommendation System for E-business Analysis using Web Mining Techniques

Submitted by Mr./Mrs./Miss _____ Mahesh Kumar Singh


for the degree of Doctor of Philosophy in _____ Computer Science


Under the faculty of _____ Science

has been approved by the Vice-Chancellor/B.O.M. on _____ 12.07.2016

Note : *The Thesis was submitted as per UGC Minimum standard and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Regulation 2009.*

Kota
Date 14.07.2016


Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306


Dy. Registrar (Res.)
University of Kota, Kota
Dy. Registrar (Res.)
University of Kota, KOTA (Res.)

Document No.

JNU/MS/ET/101306

S.No. 1271

जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर
Jodhpur National University, Jodhpur



The Chairman and Members
of
The Board of Management confer on
ASHISH SHARMA
the degree of
DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN
FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
(COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING)
in the year 2016.

Topic: "INTERCONNECTION NETWORKS OF CORE IN MULTICORE
PROCESSOR."


Registrar



Jodhpur

Printed On: 09-DECEMBER-2017


Registrar



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Shobhit University

Shobhit Institute of Engineering & Technology
Under Section 3 of UGC Act, 1956

Meerut



Upon the recommendation of the Academic Council
hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy

in

Mechanical Engineering

on

Tarang Agarwal

who has successfully completed the prescribed course of studies in the
Academic Session 2016-2017.

Given under the seal of the University at Meerut in the Republic of
India on the Twenty Fifth Day of September Two Thousand
Seventeen.



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Registrar

Vice-Chancellor

Chancellor

प्रवेशपत्र
Enrollment No. : JV-R/11/5003

संख्या
Security No. : 8398



ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान, भारत

(यू.एन. का अधिनियम संख्या 17 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित)
हम प्रबंधक बोर्ड के सदस्य इस बात को पुष्टि करते हैं कि

अंबिका बेनिवाल

को वर्ष 2016 में अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

की उपाधि प्रदान की जाती है।

Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur, Rajasthan, India

(Established by the Government of Rajasthan under Act No. 17 of 2008)

*We, The Members of The Board of Management
Humbly Confirm That The Degree*

of
Doctor of Philosophy

*Has Been Conferred Upon
Ambika Beniwal*

On Having Passed The

Final Year Examination In The Year 2016

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201305

Serial : October 5, 2016



Vidushi

Chairperson
J.V.W. Vision Gerg

12/23/2016

CBSE - UGC NET EXAMINATION - July 2016

<http://cbseresults.nic.in>



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

Central Board of Secondary Education

Examination Results 2016

Brought to you by National Informatics Centre

CBSE-UGC NET RESULT - July 2016

Roll No	15029884
Candidate Name	MANISHA BISHT
Subject	(088) Electronic Science

PAPER	PAPER-1	PAPER-2	PAPER-3	GRAND TOTAL
MARKS OBTAINED	76	62	86	224
MAXIMUM MARKS	100	100	150	350
PERCENTAGE (%)	76.00	62.00	57.33	64.00

Remark	QUALIFIED FOR ASSISTANT PROFESSOR ONLY
--------	--

[Please click here for Subject-wise/category-wise cut off for Assistant Professor and JRF](#)

Disclaimer: Neither NIC nor CBSE is responsible for any inadvertent error that may have crept in the results being published on NET. The results published on net are for immediate information to the examinees. The result declared is provisional subject to fulfilment of eligibility conditions.

Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre

Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की अनुमति पर

प्रणय भदौरिया

(पुत्र श्रीमती कमलेश भदौरिया एवं श्री उदय प्रताप सिंह)

को विद्युतीय अभियंत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि

उनके द्वारा इन उपाधि की आवश्यकताओं

विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरान्त
अनुरोध अर्पणों, सिरोधार्यकार्यों, पुत्र कार्यों के साथ
सुवर्द्धान सन् 2016 में प्रदान की जाती है।

GLA University, Mathura

Upon the recommendation of the Academic Council,

the University hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy in Electrical Engineering

upon

PRANAY BHADAURIA

(S/o Smt. Kamlesh Bhaduria & Shri Uday Pratap Singh)

who has successfully completed the requirements of prescribed examinations by the

University for the award of this degree in

with all Honours, Privileges and obligations thereunto

in the year 2016.

Title of Thesis: Studies on Weld Bead Geometry, Wear Behavior and Mechanical Properties
of Nano Structured Weld Surfacing

मथुरा (उ०ए०), भारत
Mathura (U.P.), India
Date : November 26, 2016



Shambhu
सुशान्त
Vice-Chancellor

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

क्रम संख्या
Serial No.

27214



अनुक्रमांक
Roll No. 2K11/PHDEE/22

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY



डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में पंजीकृत

पल्लवी वर्मा



को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की जाती है, जिन्होंने इस उपाधि को प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के तहत निर्धारित अपेक्षाओं को 09 दिसंबर 2016 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

इन्हें उक्त उपाधि से तृतीय दीक्षान्त समारोह में 24 दिसंबर 2016 को विभूषित किया गया।

शोध प्रबन्ध शीर्षक : कण्ट्रोल ऑफ़ सोलर PV सिस्टम बेस्ड माइक्रोग्रिड फॉर एनहांसड परफॉरमेंस

Doctor of Philosophy

Upon the recommendation of the Academic Council of the University

PALLAVI VERMA

registered in the Department of Electrical Engineering is awarded the degree of Doctor of Philosophy in the Discipline of Electrical Engineering on his/her successful completion of the requirements prescribed under the ordinances of the University for the award of this degree on December 09, 2016.

He/She is admitted to the said degree at the 3rd Convocation held on December 24, 2016.

Thesis Title : Control of Solar PV System based microgrid for Enhanced Performance

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examination

दिल्ली, (भारत) दिनांक
Delhi, (India) dated the

December 24, 2016

कुलपति
Vice-Chancellor

उपाधि क्रमांक / Degree Serial No.
PH.D/17000512

समावकन संख्या / Enrollment No.
Ph.D/10/ECE/1643



डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश



विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की अनुशंसा पर

संगीता मंगेश कार्यकर्ते

को इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय के अर्न्तगत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद्या में
विद्या वाचस्पति की उपाधि

उनके द्वारा इस उपाधि की अवाप्ति हेतु
विश्वविद्यालय द्वारा विहित अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने पर
एतद्वारा सन् 2016 में प्रदान की जाती है।

Dr. A. J. J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh

(Formerly Uttar Pradesh Technical University, Lucknow)

Upon the recommendation of the Academic Council,

the University hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy

*in the field of Electronics Engineering of the faculty of Engineering & Technology
upon*

SANGEETA MANGESH KARYAKARTE

*who has successfully completed the requirements proscribed by the University
for the award of this degree in the year 2016*

Title of thesis - QUANTUM TRANSPORT IN NANOSTRUCTURES

समावकन संख्या (G.S.) 1643
Lucknow, U.P., India
दिनांक/Date: 16/12/2016



Director



(विद्या वाचस्पति)

कुलपति

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

(विद्या वाचस्पति)
Vice-Chancellor

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय सूक्ति विद्यापीठ), धनबाद

अभिषद् की अनुशंसा पर

सुरील कुमार शर्मा

को

विद्या वाचस्पति की उपाधि रोप जनन परिपत्र



परफॉरमेंस एण्ड एमिशन एनालिसिस ऑफ डियल इंजन बाइ जूडिंग जट्रोफा बायोडियल एण्ड टायर पायरोलिसिस आयल मिक्साड विथ नैनो ऐडिटिव्स

में, विनियमों में विहित अर्हताओं को दिनांक 4 सितम्बर 2017 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरांत, भारतीय गणराज्य के संसद में यह पुरस्कार उपाधि दिनांक 13 अप्रैल 2018 को प्रदान करात है।

Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad

On the recommendation of the Senate, hereby confers upon

Sureil Kumar Sharma


the Degree of Doctor of Philosophy
on the Research Title

PERFORMANCE AND EMISSION ANALYSIS OF DIESEL ENGINE BY
USING JATROPHA BIODIESEL AND TYRE PYROLYSIS OIL MIXED
WITH NANO ADDITIVES

on successful completion of the requirements prescribed under the regulations, on 4th September, 2017 for the award of this degree.


Given this day, under the seal of the Institute of Dhanbad in the Republic of India, the 13th day of April, 2018.


कुलसचिव
Registrar


निदेशक एवं अध्यक्ष, अभिषद्
Director &
Chairman, Senate


Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306


अध्यक्ष, शासक मंडल
Chairman,
Board of Governors



University of Delhi

विद्या-वाचस्पति * Doctor of Philosophy (Ph.D.)

प्रमाणित किया जाता है कि फरवरी, 2017 में

मैग्नीशियम आयन कंडक्टिंग पॉलीमर एलेक्ट्रोलाइट्स फॉर सॉलिड-स्टेट

मैग्नीशियम बैटरीज

पर शोध प्रबंध स्वीकृत हो जाने के उपरांत

ज्योति शर्मा

को 2017 के दीक्षांत समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय की

विद्या-वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई ।

विभाग: भौतिकी एवं खगोल भौतिकी

This is to certify that after approval of the thesis on

Magnesium Ion Conducting Polymer Electrolytes for Solid-State Magnesium
Batteries

In February, 2017

Jyoti Sharma

qualified for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) of this University.

The said degree was conferred upon him/her at the convocation held in 2017 .


Department: Physics & Astrophysics

मुख्यसचिव

दिल्ली विश्वविद्यालय

Registrar

University of Delhi



दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 2017
Delhi, Dated the 18th November, 2017

मुख्यसचिव

दिल्ली विश्वविद्यालय

Vice Chancellor

University of Delhi

नामांकन संख्या

Enrol.No. MH-705/04



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

14



दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY




डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद की अनुमति पर

नेहा गुप्ता

को एम्पाइड फिलिस्फा में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की जाती है, जिन्होंने इस उपाधि को प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के आचरों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को 14 जून 2017 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। उन्हें उक्त उपाधि से वार्षिक विद्याना समारोह में 15 दिसंबर 2017 को विभूषित किया गया।
 थीसिस प्रमुख शीर्षक : टी सी ए टी एनालिसिस एंड सिमुलेशन ऑफ गेट इलेक्ट्रोड एर्कैन्वशन इंजीनियर्ड (जी ई डब्ल्यू ई) सिलिकॉन नैनोवायर मॉस्फेट कॉर हाई परफॉरमेंस एनालॉग एंड आर एफ एप्लिकेशन्स

Doctor of Philosophy

Upon the recommendation of the Academic Council of the University

NEHA GUPTA

is awarded the degree of Doctor of Philosophy in Applied Physics who has successfully completed the requirements prescribed under the ordinances of the University for the award of this degree on June 14, 2017. He/She is admitted to the said degree at the 4th Convocation held on December 15, 2017.

Thesis Title : TCAD Analysis and Simulation of Gate Electrode Workfunction Engineered (GEWE) Silicon Nanowire MOSFET for High Performance Analog and RF Applications

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

कुलसचिव
Registrar

दिल्ली, (भारत) दिनांक
Delhi, (India) dated the December 15, 2017

कुलपति
Vice-Chancellor



डा. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश



विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की अनुशंसा पर

विक्टर दत्ता

को इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद्या में
विद्या वाचस्पति की उपाधि

उनके द्वारा इस उपाधि की अवाप्ति हेतु
विश्वविद्यालय द्वारा विहित अपेक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने पर
एतद्वारा सन् 2017 में प्रदान की जाती है।

Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh

(Formerly Uttar Pradesh Technical University, Lucknow)

Upon the recommendation of the Academic Council,

the University hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy

*in the field of Electronics Engineering of the faculty of Engineering & Technology
upon*

VICTOR DUTTA

*who has successfully completed the requirements prescribed by the University
for the award of this degree in the year 2017*

Title of thesis - WATERMARKING FOR MEDICAL
IMAGES

WATER (U.P.), 2008
Lucknow, U.P., India
Date/Issued: 16/10/2017



Vinay Kumar Pathak
Director



Vinay Kumar Pathak
(विद्या वाचस्पति)
कुपेक्षी

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306
Vinay Kumar Pathak
Varanasi

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

हम, राजस्थान विश्वविद्यालय के
कुलाधिपति, कुलपति तथा सेनेट के सदस्य प्रमाणित करते हैं कि
विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग विभाग, इलेक्टानिक्स संकाय में
संगमित्रा विकास अरोरा
को शोध प्रबन्ध

Short Utterance based Speaker Identification System for resource constrained devices

25-02-2017 को स्वीकृत होने के उपरान्त

डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी

की उपाधि प्रदान की गई।

प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय की मुद्रा और कुलपति के हस्ताक्षर से अंकित किया जाता है।

University of Rajasthan

Jaipur

*We, The Chancellor, Vice-Chancellor
and the Members of the Senate of University of Rajasthan
Certify that*

Sanghamitra Vikas Arora
*of the University Department of Engineering Faculty of Electronics
has been conferred the Degree of*

Doctor of Philosophy

after approval of the thesis

Short Utterance based Speaker Identification System for resource constrained devices

on 25-02-2017.

*In Testimony whereof are set the Seal of the said University and the signature of
the said Vice-Chancellor.*



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

R. K. Jothari
कुलपति
Vice-Chancellor

Jaipur, Dated : 07-10-2017

प्रवेशपत्र
Enrollment No. : JV-R/12/5004

प्रत्यांक
Security No. : 8297



ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान, भारत

(कानून का अधिनियम संख्या 17 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित)
हम प्रबंधक बोर्ड के सदस्य इस बात को पुष्टि करते हैं कि

रस्वीन

को वर्ष 2013 में अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

की उपाधि प्रदान की जाती है।

Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur, Rajasthan, India

(Established by the Government of Rajasthan under Act No. 17 of 2008)

*We, The Members of The Board of Management
Humbly Confirm That The Degree*

of
Doctor of Philosophy

*Has Been Conferred Upon
Rasveen*

On Having Passed The

Final Year Examination In The Year 2017

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Serial : October 5, 2017



Vidushi

Chairperson
J.V.W. Vision Gerg




वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
मानव संसाधन विकास समूह, परीक्षा एकक

Human Resource Development Group, Examination Unit
सी.एस.आई.आर. कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, पुसा, नई दिल्ली-110 012
CSIR Complex, Library Avenue, Pusa, New Delhi-110 012

Dated: 19.12.2018

Sr.No: 1121710395
RefNo: 17/12/2017(JI) EU-V

ROLLNO: 110949
Sh. VIKAS PAL
S/O ANTRAM PAL
HOUSE NO.476 GALI NO.4
GEETANJALI VIHAR
LOMI
GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201102



Sub: - Joint CSIR-UGC National Eligibility Test (NET) for Junior Research Fellowship (JRF) and for Lectureship (LS) held on 17.12.2017 and result declared on 09.05.2018.

Dear Candidate,

CSIR is pleased to inform you that you have been declared qualified in the above examination for award of Junior Research Fellowship and secured 92 rank in CHEMICAL SCIENCES subject under CSIR Fellowship scheme. Further, you have also been declared qualified for eligibility for Lectureship (LS) in the above subject area, subject to fulfilling the eligibility criteria laid down by UGC.

The offer of Junior Research Fellowship is valid for a period of two years w.e.f. 01.07.2018 and is not extendable. It will be governed by the terms and conditions of the CSIR Junior Research Fellowship.

In order to accept this offer, you should send the joining report, undertaking and & attestation proforma (which can be downloaded from our website www.csirhrdg.res.in) and submit the same, duly completed in all respects to The Deputy Secretary (EMR)/US(EMR) at the address given overleaf.

This letter may be treated as a certificate.

Yours sincerely,

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

श्री. नगहान्शान्ग / K. NGAHANSHANG
अन्तः सचिव (परीक्षा) / Under Secretary (Exam)
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
Council of Scientific & Industrial Research
श्री. रा. अर्ज. अंत. अखंडार, पुसा, नई दिल्ली-12
CSIR Complex, Pusa, New Delhi-110012

Important Note:

- This certificate is being issued on the basis of information provided by the candidate in his/her application form. The appointing authority/fellowship awarding authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment/fellowship, as Examination Unit, CSIR Complex is not responsible for the same. In case the candidate has qualified under RA (Result Awaited Category) the certificate will be valid only from the date of acquiring the requisite qualification as stipulated in the notification. The details regarding the eligibility criteria for this test are given overleaf.
- In case the candidate does not fulfil any of the eligibility conditions and Caste/PWD status (wherever applicable), this certificate may be treated as cancelled.

Electronic Certificate No.: 172041376



University Grants Commission

NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU



NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

UGC Ref. No: 41376(OBC)NET-NOV 2017

Roll No.: 15002888



Certified that **ASHISH PATEL**

Son/Daughter of **ASHOK KUMAR PATEL**
RAJKALI

and

OBC had applied for the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held on **05-11-2017** in the **OBC** category and qualified by securing marks at par with the qualifying cut-off for **COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS** category in the Subject

As per the information provided by the candidate, he/she had completed his/her Master's degree or equivalent examination at the time of applying for NET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of NET result, i.e., **1st January, 2018**, OR the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of NET result, i.e., by **1st January, 2020**, whichever is later.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the UGC by the employer. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

Validity of this electronic certificate is forever.

Director

Head
NET Bureau

Date of Issue: **19-03-2018**

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Note: a) UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment; as the Commission is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET as laid down in the notification for UGC-NET.

b) Wherever SC/ST/OBC/PWD is shown in the UGC Ref. No., the institution/recruitment body should check the relevant documents of that category.

Registration No. 959906007



Thapar University, Patiala

(Declared as Deemed-to-be-University u/s 3 of the UGC Act, 1956)

Doctor of Philosophy

Certified that Shweta Gupta daughter of
Shri Ashok Kumar Gupta & Smt. Raj Gupta

has obtained the Degree of Doctor of Philosophy on her having successfully completed the prescribed requirements
for the said degree in March 2018.


The title of her thesis is :

Peak to Average Power Ratio Reduction of

OFDM Signals Using Peak Reduction Carriers

Given this day under the seal of the University at Patiala, the Third day of November, Two Thousand and Eighteen.


Registrar


Director



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



India's First State Private Women's University

JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN'S UNIVERSITY, JAIPUR

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर

Established by Govt. of Rajasthan through Act No. 17 of 2008 under section 2(f) & 12(b) of the UGC Act, 1956
NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

Estd. in 2008
केटी ज्ञानो, केटी प्रज्ञानो

PROVISIONAL DEGREE CERTIFICATE

It is certified that **Ms. Neelam** D/O Sh. M. C. Kaushik & Smt. Prabha Kaushik having Enrolment No. **JVR-I/ 11/ 4653** has successfully completed the course work and thesis entitled **A study on work-life balance of women employees in Engineering Colleges in GB. Nagar and Ghaziabad** for the degree of **Doctor of Philosophy** in **Commerce** of this University in the month of **July 2018**.

The Degree shall be conferred upon her in the next convocation of the University.

Director

Date: 16 July, 2018.

Place: Jaipur

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

(JV'n Dr. Hema Bafila)

Registrar

Registrar

Jayoti Vidyapeeth Women's University
Jaipur, Rajasthan

JV-Mantra

GREEN CLEAN HAPPINESS

The Multidisciplinary Education & Research University (M.E.R.U.) leading towards Nation's First "Atma Nirbhar" Women University of India.

FOUNDED BY: VISIONARY DR. PANCAJ GARG "YOUNGEST FOUNDER OF A UNIVERSITY" DECLARED BY "INDIA BOOK OF RECORDS"

Vedant Gyan Valley, Village-Jharna, Mahala-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Expressway, NH-8, Jaipur, Rajasthan (303122)

(T) 0141-2370501 (M) 9001140140 | Toll Free: 1800 5722 266 | Website: www.jvwu.ac.in | Email: registrar@jvwu.ac.in

We Deliver "Nation Building & Community Development Program (NBCD)" Certified Women to the Nation



Serial No.: 19 00 23

SIKKIM PROFESSIONAL UNIVERSITY

An abode of Knowledge
(Erstwhile Vinayaka Missions Sikkim University)
Todong, Gangtok, East Sikkim

Provisional Degree

The University Hereby Confers Doctor of Philosophy (3 Yrs) in the Field
of English of The

College of Arts & Social Science

Name : Malti Singh

Bearing Registration No. Phd/2016-17/0026

Under the Thesis Title "IMPORTANT ROLE OF COMMUNICATIVE ENGLISH LANGUAGE

TEACHING TO ENHANCING THE QUALITY OF LIFE OF LEARNERS' WIDER LIFE IN INDIA:

A LINGUISTIC ANALYSIS."

..... who has successfully Completed the
Requirements Prescribed by the University for the award of this
Provisional Degree in the Year January 2020 [as per the UGC
(minimum standards and procedure for award of M.Phil/Ph.D Degree
regulation, 2016)]

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Asst. Controller Of Examinations
Sikkim Professional University
Controller of Examination

Date : 2019-07-19



SHOBHIT INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

A Deemed to-be-University established u/s 3 of UGC Act, 1956
(Formerly known as Shobhit University, Meerut)

Meerut, India



Upon the recommendation of the Academic Council
hereby confers the degree of

Doctor of Philosophy in Management on

Rajdhari Kumar Singh

who has successfully completed the prescribed course of studies on
the topic entitled:-

**"A Comparative Study of Motivational Factors for Employees of Public and
Private Sector Banks in Meerut District"**

Given under the seal of the University on Twenty Fifth day of
September, Two Thousand Nineteen at Meerut, Uttar Pradesh,
Republic of India.



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Vice-Chancellor

Chancellor

Registrar



JAGANNATH UNIVERSITY

Established by Act No. 10 of 2008 of Rajasthan State Legislature
[UGC APPROVED & NAAC ACCREDITED]

Faculty of Engineering and Technology

This is to certify that *Adarsh Malviya*
Son/Daughter of *Siya Anuran Rai & Gyani Kumari*
has been conferred the degree of

Doctor of Philosophy

in this University in the subject of *Computer Science*

at the Convocation held in *2019*

The Thesis on the title: *Towards Expert Systems for Enhancing Quality of Services in Cloud Computing*

has been approved on *6 February, 2019*

in accordance with the provisions of the *UGC Regulations, 2009*

Given under the seal of the University



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Registrar

President

COPY

Jaipur, 9th February, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that *Ms. Nisha Sharma (PH2012009)* was PhD scholar at Invertis University, Bareilly under the guidance of Dr. Y D S Arya.

She successfully defended her thesis "*Some Approaches for Continuous User Authentication using Multi Biometric Traits*", and upon the recommendation of the Academic Council, was awarded PhD degree in Computer Science and Engineering in the month of July, 2019.

Santosh
22/06/2020
Registrar

Invertis University, Bareilly

Arundh

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

CAMPUS

Invertis Village, Bareilly-Lucknow National Highway-24, Bareilly (UP)-243 123

• Ph. & Telefax: (0581) 2460442, 2460443, 3390000

• Fax: (0581) 3390233, 2460454 • Email: info@invertis.org

CITY OFFICE:

B-186, Civil Lines, Opp. GPO, Bareilly-243001 • Ph.: (0581) 2429100, 2429000

www.invertisuniversity.ac.in



Roll No: 13-PHDEE 4

Enrolment No: 13-6139

جامعہ ملیہ اسلامیہ
JAMIA MILLIA ISLAMIA
 (A Central University by an Act of Parliament)
 NAAC Accredited Grade 'A'

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to certify that Lily Kumari

after approval of his/her thesis on

"A Novel UWB Planar Antenna for Biomedical Applications based on CB - CPW Technique"

in the year 2019

has been awarded the Degree of Doctor of Philosophy.

ڈاکٹر آف فلاسفی

کو

للی کمار

تصدیق کی جاتی ہے کہ

پلانر اینٹینا "سے بی۔ سی۔ بی۔ ٹیو ٹیکنیک پر مبنی ہائو میڈیا ایپلی کیشنز کے لیے ایک ناول فرا وائیڈ بینڈ"

۲۰۱۹ء میں

پہ تحقیقی مقالہ منظور ہونے کے بعد ڈاکٹر آف فلاسفی کی سند سے نوازا گیا۔

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Musajjid
(Registrar)

مسجید



Sheikhul Jamia
(Vice-Chancellor)

شیخ الجامعہ

30 OCT 2019


New Delhi India, Dated

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۹ء

1902552



भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान
वर्ग-III, ग्रेटर नोडा



INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
BANARAS HINDU UNIVERSITY

PROVISIONAL CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms. Mr. Vikram Kumar
S/o/D/o Shri Binod Kumar has completed
all requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy for the
year of 2019.

The Degree will be issued to him/her on the occasion of the Convocation
of the Institute and the date of award shall be 16.10.2019.

Title of the Thesis Design Studies of TM_{01} to TE_{11} Sectoral
Waveguide Mode Converters for the High Power
Microwave Systems

Date: 15.06.2020

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Dean (Academic Affairs)

अधिष्ठाता (शैक्षणिक-कार्य)

DEAN (Academic Affairs)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

Indian Institute of Technology

(बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय)

Banaras Hindu University

वाराणसी, Varanasi-221005

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Chaudhary Charan Singh University, Meerut



विद्या वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि आस्था मल्होत्रा
आत्मज/आत्मजा श्री हर्ष मल्होत्रा एवं श्रीमती अश्विनी मल्होत्रा को इस विश्वविद्यालय
से सन् 2019 के दीक्षान्त समारोह में गणित विषय पर विद्या वाचस्पति की
उपाधि प्रदत्त की गयी है।

DOCTOR OF PHILOSOPHY

This is to Certify that **Astha Malhotra** Son/Daughter
of Shri **Harsh Malhotra** and Smt. **Ashwani Malhotra** has been
conferred the Degree of **DOCTOR OF PHILOSOPHY** of this University
in **Mathematics** at the Convocation of **2019**.

शीर्षक/Title : STUDY OF HEAT TRANSFER PROBLEMS IN THE
AXISYMMETRIC FLOWS OF NON-NEWTONIAN SECOND-
ORDER FLUIDS



No. No. 36696

BABA MASTNATH UNIVERSITY

ASTHAL BOHAR ROHTAK

(Established under Haryana Private University Act, 2006 & recognized by UGC vide letter No. F.No. 8-14/2012 (CPP-3/PL) dated 25-01-2016)



PROVISIONAL DEGREE

Certified that the award of Degree of Doctor of Philosophy to

Gunjeet Kaur ✓

Ms./ Mr.

Hardayal Singh Saini

son/daughter of Shri

Regn. No. **14-BMU-6414** in the subject of **Electronics & Communication**

has been approved vide Notification No. **Ph.D./2019/40**

dated **25-07-2019**

The Degree being awarded is in accordance with

the provisions of UGC ("Minimum standards & procedures for award of

M.Phil / Ph. D. degree) regulations 2009"). The degree will be issued to the

candidate later on.

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Date: **25-07-2019**

Dy./Asstt. Registrar (Results/Specialty)
Asstt. Registrar (Results)

Baba Mastnath University
Asstt. Registrar



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ), धनबाद
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (INDIAN SCHOOL OF MINES)
DHANBAD

धनबाद -826004 झारखंड, भारत

DHANBAD-826004, JHARKHAND, INDIA

No. 1541/EXAM/1999/PhD/EE/HMR/19

Dated: 28.02.2019

PROVISIONAL CERTIFICATE

This is to certify that **Mr. Hari Mohan Rai** (Regn. No. **2014DR1179**) fulfills the requirement(s) for the award of Doctor of Philosophy (Ph. D.) Degree on the basis of thesis entitled **"DETECTION OF FATAL DISEASES FROM BIOMEDICAL SIGNALS AND IMAGES USING HYBRID DEEP NEURAL NETWORK MODELS"** submitted under the guidance of Prof. Kalyan Chatterjee (Guide); Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad vide result notification No. Exam/199905/Ex.Bd/2007-08 (Vol. III) dated 28.02.2019.

Deputy Registrar (Academic)

Deputy Registrar (Academic)

Indian Institute of Technology
(Indian School of Mines), Dhanbad
Jharkhand-826004, INDIA

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Sr.No.

Registration No. 2024JNU002487008

0085



JAGANNATH
UNIVERSITY, BAHADURGARH, HARYANA

(Established by Haryana State Legislature Act No. 8 of 2002)
(As approved under Section 22 of the UGC Act 1956)

Provisional Certificate

This is to certify that HIRDESH SHARMA
son/daughter of RAM NIWASH SHARMA
has successfully completed his/her Ph.D thesis entitled
**Design and Analysis of a Multilevel Algorithmic
Technique for Encryption and Decryption**

in the Department of Computer Science & Engineering
Faculty of Engineering and Technology
as approved by the Research Degree Committee at its meeting held
on 22 July 2024

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Certified that the degree has been awarded to the candidate in accordance with the provision of
the UGC (Minimum standards and Procedures for the Awards of M.Phil/Ph.D) Regulations, 2004

Place: Bahadurgarh

Date: 22 July 2024

Registrar



E-Certificate No.

23006178



NATIONAL TESTING AGENCY

Creating the tomorrow



NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

NTA Ref. No: 230528227054

Hall No: DL01000668

Certified that **PARTH SHARMA** son Daughter of **SANJAY SHARMA** and **SUDHA SHARMA** has qualified the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held on **07.12.2023** for December 2023 in the subject **COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS**



As per information provided by the candidate, he/she had completed /appeared or was pursuing his/her Master's degree or equivalent examination in the related subject at the time of applying for UGC-NET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of UGC-NET result, i.e. **18-01-2024**, or the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of UGC-NET result, i.e. by **17-01-2025**, whichever is later.

This is an electronic certificate only. Its authenticity and category in which the candidate had appeared should be verified from National Testing Agency (NTA) by the institution/appointing authority. This electronic certificate can also be verified by scanning the QR Code.

The validity of this electronic certificate is forever.

Date of issue: **26-02-2024**

Rajesh Kumar, IRS
Director(Exam), NTA

Note: NTA has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his/her Application as the appointing authority shall verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as NTA will not be liable for any false information provided by the candidate. The NTA is only responsible for the result which can be verified from the repository available from the website of NTA (ugcnet.nta.ac.in). The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions as set down in the notification for UGC-NET.

03EFC00F-1FEC-C825-4E6D-9CE7CC4E758E

Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
KHARAGPUR - 721302
PROVISIONAL CERTIFICATE
for the degree of
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

*Certified that Lavish Kumar Singh of the Department of METALLURGICAL & MATERIALS ENGINEERING
has successfully completed all the prescribed requirements for the degree of Ph.D. of the Institute.*

The date of the Ph.D. Viva-Voce examination is 29-09-2019

The title of the Ph.D. thesis is

Synthesis and Evaluation of Multi-Scale Mechanical Properties of Spark Plasma Sintered Bimodal Al-CNT Nanocomposites

This certificate is issued this day, the October 04, 2019, with the approval of the authorities.

Superintendent (PGS & R)

Joint Registrar (Academic) / Assistant Registrar (PGS&R)

*Joint Registrar (Academic)
IIT Khargapur*

Note : Validity of this certificate will expire after the degree is awarded in the next convocation.



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद

विद्या परिषद की अनुशंसा पर



दीपिका अग्रवाल

की

जनवरी 2020 में शोध-प्रबंध के सफल पक्षपोषण के उपरान्त

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

की संस्थान मुद्रा अंकित यह उपर्युक्त सम्मान विरोचधितारों व
दायित्वों के साथ आज 31 दिसम्बर 2020 को प्रयागराज (भारत) में प्रदान करता है।

Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad

*on the recommendation of the Senate
hereby confers on*

DEEPIKA AGARWAL

*on successful defence of the thesis in January, 2020
the Degree of*

Doctor of Philosophy

*with all Honours, Privileges and Obligations thereunto pertaining on this
day the 31st December 2020, under Seal of the Institute at Prayagraj (INDIA).*

*Thesis: A Study on Sum of Linear Fractional and Fuzzy-Valued Linear Fractional
Optimization Problems*



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
Chairperson, Board of Governors



अध्यक्ष, विद्या परिषद
Chairman, Senate

SL.NO. 1068

पंजीकरण संख्या
REGN. NO. 12019011

**GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY OF
SCIENCE & TECHNOLOGY HISAR**



PROVISIONAL DEGREE CERTIFICATE

Doctorate of Philosophy


This is to certify that the Research Degree Committee in its meeting held on 29-06-2020 has recommended to award the degree of 'Doctorate of Philosophy' to Mr. RAJEEV GUPTA son of SH. JAWAHAR GUPTA on the Topic : ISOLATED WORD RECOGNITION USING LANGUAGE MODELING TECHNIQUE FOR PUNJABI LANGUAGE in COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING under the faculty of ENGINEERING AND TECHNOLOGY.

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

DEPUTY REGISTRAR

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY KANPUR



विद्या-वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि
— बिपिन पाण्डेय — को इस विश्वविद्यालय
के २०२१ के दीक्षान्त समारोह में — कम्प्यूटर विज्ञान —
विषय पर विद्या-वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई।
उक्त उपाधि के लिये आपने निर्धारित विषय पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया।

Doctor of Philosophy

This is to certify that Bipin Pandey
has been awarded to the Degree of **Doctor of Philosophy**
in this University in Computer Science *at the*
Convocation of 2021.

The subject on which he/she presented a Thesis for the Degree was:
REACHING PROBLEM SOLVING THROUGH AI TECH.

27/05/2021
2021


कुलसचिव
Vice-Chancellor

कुलपति
Chancellor

Registration No. IC/189703B

No. 395423

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY KANPUR



विद्या-वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि

राजत कुमार को इस विश्वविद्यालय

के २०२१ के दीक्षान्त समारोह में कम्प्यूटर विज्ञान

विषय पर विद्या-वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई।

उक्त उपाधि के लिये अपने निम्नांकित विषय पर शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किया।

Doctor of Philosophy

This is to certify that Rajat Kumar

*has been awarded to the Degree of **Doctor of Philosophy***

in this University in Computer Science at the

Commencement of 2021.

The subject on which he/she presented a Thesis for the Degree was

"**WIRELESSLY POWERED SECURED BACKSCATTER COMMUNICATION FOR WIRELESS SENSOR NETWORK**"

Chhatrapati Shahuji Maharaj University
Kanpur

[Signature]
कुलसचिव

[Signature]
कुलपति

Dr. Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Registration No. 951503012

ti

Thapar Institute of Engineering and Technology, Patiala

(Deemed-to-be-University)

Doctor of Philosophy

Certified that Manoj Kumar son of
Shri Tilak Singh Yadav & Smt. Vimla Devi


has obtained the Degree of Doctor of Philosophy on his having successfully completed the prescribed requirements
for the said degree in August 2021.

The title of his thesis is :

Metaheuristic Approaches for Occlusion Invariant 3D Face Recognition Technique

Given this day under the seal of the Institute at Patiala, the Eighth Day of November, Two Thousand and Twenty One.


Registrar


Director



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY KANPUR



विद्या-वाचस्पति

प्रमाणित किया जाता है कि

संदीप मिश्रा को इस विश्वविद्यालय

के २०२१ के दीक्षान्त समारोह में कम्प्यूटर विज्ञान

विषय पर विद्या-वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई।

उक्त उपाधि के लिये आपने निम्नलिखित विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया।

Doctor of Philosophy

This is to certify that Sandeep Mishra

has been awarded to the Degree of Doctor of Philosophy

in this University to Computer Science at the

Convocation of 2021.

The subject on which he / she presented a Thesis for the Degree was

"THE IMPACT OF COMPUTING INFORMATION SYSTEMS IN A TRADITIONAL INDUSTRIAL SECTOR IN INDIA"


27/07/2021
27th July, 2021

कुलसचिव

Director

कुलापति

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



No. 1470/EXAM/2199/PhD/MECH/SKS/21

Dated: 25/08/2021

PROVISIONAL CERTIFICATE

This is to certify that **Mr. Shailesh Kumar Singh** (Regn. No. 17DP000284) fulfills the requirement(s) for award of Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree on the basis of thesis entitled "**TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF CHROMIUM NITRIDE COATING DEPOSITED BY PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION**" submitted under the guidance of Prof. Somnath Chattopadhyaya (Guide) Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad vide result dated 25/08/2021.

Deputy Registrar (Academic)
Deputy Registrar (Academic),
Indian Institute of Technology
(Indian School of Mines), Dhanbad
Jharkhand-826004, INDIA

Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



NATIONAL TESTING AGENCY


Excellence in Assessment

E-certificate No: JUS21C05570

University Grants Commission
Joint CSIR-UGC Test



JOINT CSIR-UGC TEST



NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

NTA Ref. No: 211610192279

Roll No: UUP50000230



Certified that **ABHISHEK KUMAR**

Next Exemplar of **SHOBHA DEVI**

and **DEVENDRA GUPTA**

has qualified

in June 2021 Joint CSIR-UGC Test for eligibility for Assistant Professor in the subject,
Mathematical Sciences

As per information provided by the candidate, he/she had completed/appeared or was pursuing his/her Master's degree or equivalent examination in the concerned/related subject at the time of applying for Joint CSIR-UGC Test

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of Joint CSIR-UGC Test result, i.e. 24.03.2022, or the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of Joint CSIR-UGC Test result, i.e. by 23.03.2024, whichever is later.

This is an electronic certificate only, its authenticity and category in which the candidate had appeared should be verified from National Testing Agency (NTA) by the institutions/sponsoring authority. This electronic certificate can also be verified by accessing the QR Code.

The validity of this electronic certificate is forever

Director

Senior Director NTA

Date of issue: 19.04.2022

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

NOTE: NTA has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate. It is the candidate's responsibility to provide accurate information. The sponsoring authority should verify the original records/certificate of the candidate while considering him/her for appointment, as the NTA will not be liable for any false information provided by the candidate. The NTA is only responsible for the result, which can be verified from the records available on the website of NTA (nta.nic.in). The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions as laid down in the notification for Joint CSIR-UGC Test.

10110091/2017P1(XF)9020P

The Birla Institute of Technology & Science

Upon the Recommendation of the Senate hereby confers on

Teena Gakhar

The Degree of

Doctor of Philosophy

having been found duly qualified. The thesis presented for the Degree was entitled "*Carbon-TiO₂ Nanocomposites based Devices for Detection of Volatile Organic Compunds*".

Given this twenty sixth day of April, two thousand twenty two under the Seal of the Birla Institute of Technology & Science at Pilani in the State of Rajasthan, India.



DIRECTOR



REGISTRAR



CHANCELLOR



CO-CHANCELLOR



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Serial No. FHD/2022/195

Admission No. 2018DR0049

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनिज विद्यापीठ), धनबाद

अभिषद् की अनुसंधान पर
अनिबन्धन विद्या
को



विद्या वाचस्पति की उपाधि शोध प्रबंध शीर्षक

पावर क्वालिटी इश्यूज ऑफ विंड टरनाइन

से, विनियमों में विहित अर्हताओं को दिनांक 25 जुलाई 2022 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के
उपरांत, भारतीय गणराज्य के अंतर्गत धनबाद में यह पुरस्कृत उपाधि दिनांक 28 सितम्बर 2022
को प्रदान करता है।

Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad

On the recommendation of the Senate, hereby confers upon


Anirban Mishra


the Degree of Doctor of Philosophy
on the Research Title


POWER QUALITY ISSUES OF WIND TURBINE

on successful completion of the requirements prescribed under the
regulations, on 25th July 2022 for the award of this degree.
Given this day, under the seal of the Institute at Dhanbad in the
Republic of India, the 28th day of September, 2022.


कुलसचिव
Registrar


निदेशक एवं अध्यक्ष, अभिषद्
Director &
Chairman, Dhanbad


Director


अध्यक्ष, शासक मंडल
Chairman,
Board of Governors

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

क्रम संख्या
Serial No.


52257



2K16/PHDME/501

अनुक्रमांक
Roll No.

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY



डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी

विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद की अनुशांसा पर
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में पंजीकृत

साकेत कुमार



को मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी
की उपाधि प्रदान की जाती है, जिन्होंने इस उपाधि को प्रदान किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के तहत
निर्धारित अपेक्षाओं को 10 अप्रैल 2022 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

इन्हें उक्त उपाधि से नवमी दीक्षान्त समारोह में 19 दिसम्बर 2022 को विभूषित किया गया।

शोध प्रबन्ध शीर्षक : एक्सपेरिमेंटल एंड थर्मोडायनामिक एनालिसिस ऑफ़ सीआई इंजन युजिंग डीजल बेस्ड
बायोफ्यूल ब्लेंड्स

Doctor of Philosophy

Upon the recommendation of the Academic Council of the University

SAKET KUMAR

registered in the Department of Mechanical Engineering

is awarded the degree of

Doctor of Philosophy in the Discipline of Mechanical Engineering

*on his/her successful completion of the requirements prescribed under the ordinances of the
University for the award of this degree on April 10, 2022.*

He/She is admitted to the said degree at the 9th Convocation held on December 19, 2022.

*Thesis Title : Experimental & Thermodynamic Analysis of CI Engine Using Diesel-
Based Biofuel Blends*

R. Pandey

[Signature]

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

[Signature]

परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examination

दिल्ली, (भारत) दिनांक
Delhi, (India) dated the

December 19, 2022

कुलपति
Vice-Chancellor

S.No. 3012

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

PROVISIONAL CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms. Vibhav Narayan Singh.....

..... has been recommended

for the award of the degree of Doctor of Letters / Doctor of Science / Doctor
of Laws / Doctor of Philosophy / Vidyawaridhi / Vachaspati

in the subject Physics.....

from the Department of Physics.....

of this University for the year of 2024..... by Research Degree Committee at its
meeting held on 15.05.2024.....

The Degree will be issued to him/her on the occasion of the next Convocation
of the University.

Title of the Thesis Fractals, New Features in Non-Hermitian and
Space Fractional Quantum Mechanics.....

Dated 16.05.2024.....

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Controller of Examinations

Serial No.: 130913

Enrollment No.: 2017004047



SHARDA
UNIVERSITY
Beyond Boundaries

On the recommendations of the Academic Council of
SHARDA UNIVERSITY

Greater Noida, Uttar Pradesh, India

Arpana Mishra

having successfully completed the prescribed requirement for
the degree of

Doctor of Philosophy
(Electronics and Communication Engineering)

on July 09, 2024

is hereby admitted to the said degree.

Thesis Title: Designing Low Power Clustering and Routing Protocols for Large Scale Wireless
Sensor Network



Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Vice-Chancellor

Registrar





Vinayaka Mission's Research Foundation
(Deemed To Be University)
Formerly Vinayaka Missions University
(Declared under section 3 of the UGC Act, 1956)



FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

*The Board of Management of the
Vinayaka Mission's Research Foundation
hereby makes known that*

KAUSTUBH KUMAR SHUKLA

*has been admitted to the Degree of
Doctor of Philosophy in Electronics & Communication Engineering
having been certified by July appointed Examiners
to have qualified to receive the same in the year 2023 the thesis entitled*


*Design and Performance Analysis of MEMS - Based Device for
Environmental Monitoring and Healthcare*

Viva-Voce Examination held on 24.02.2023

Given under the seal of the University

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



Salem, 07-07-2023

Controller of Examinations

Registrar

Vice-Chancellor





दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
(Formerly Delhi College of Engineering)



F.No.105-44/DTU/Acad.PG/Prov. Cert./2023/1379

Dated: 25/01/2024


PROVISIONAL CERTIFICATE


This is to certify that Mr. Deepak Kumar So Late, Sh. Jagdish Prasad, Roll No. 2K18/PHDME/07 who has been a student of this University in the Department of Mechanical Engineering during the period 2018-2024 has completed Ph.D. from Delhi Technological University.


The topic of his Ph.D. is "Wear Behaviour of Composite Coatings by Thermal Spray Process for High Temperature Applications" as per result notification No. DTU/Results/PhD/2024/552 dated 10.01.2024 issued by the Delhi Technological University.

Prepared by: 

Checked by: 


Prof. Raju Sarkar
Associate Dean (Academic-PG)


Prof. Rinku Sharma
Dean (Academic-PG)


Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306



Book No. 162

S. No. 8052


CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT
(FORMERLY MEERUT UNIVERSITY)

PROVISIONAL CERTIFICATE

This is to certify that Gopal Singh
has been conferred Ph.D. degree in Mathematics
on the topic "Modelling of Fuzzy Expert System for the
Performance Evaluation of the Students"

by the Executive Council of this University in its meeting held on
19.01.2024. The degree will be awarded at the ensuing
Convocation of this University.

Dated 20.01.2024



Director
Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306


Registrar

Electronic Certificate No: 171005177



University Grants Commission
NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU



JOINT CSIR-UGC TEST

NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

UGC Ref. No: 5177(CSIR-UGC NET JUNE 2017)

Roll No: 532232

Certified that **VIBHAV NARAYAN SINGH**



Son/Daughter of **RAJ NATH SINGH**

Registration No:

the **JOINT CSIR-UGC Test for Eligibility for Assistant Professor** held on **18-06-2017**
in the Subject **PHYSICAL SCIENCES**

As per the information provided by the candidate, he/she has not completed higher Master's degree or equivalent examination at the time of applying for this test.

The date of Eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of NET result, i.e.,
30th Nov. 2017 OR the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of NET result, i.e., by **29th Nov. 2019**, whichever is later.

This is an electronic certificate only. Its authenticity and category in which the candidate has appeared should be verified from UGC by the institution appointing authority. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

Validity of this electronic certificate is forever.

Date of Issue: **06-12-2018**

Director

Dronacharya Group of Institutions
27, KP-III, Greater Noida-201306

Head
NET Bureau

Note: UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original micro-certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the Commission is not responsible for the same. The candidate must fulfil the internal eligibility conditions for NET as laid down in the notification for Joint CSIR-UGC NET.